

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 415]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2018 — आश्विन 19, शक 1940

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2018

सूचना

क्रमांक -28/चार/विसचु/2018. — छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की अधिसूचना क्र. 3544/21-ब/छ. ग./2018 - दिनांक 09 अक्टूबर 2018 के द्वारा विधान सभा निर्वाचन-2018, विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की नियुक्ति कर उन्हें विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है.

छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(सुब्रत साहू)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 9 अक्टूबर 2018

अधिसूचना

क्रमांक 10063/3544/21-ब/छ.ग./2018. — राज्य सरकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक-28/चार/2018/3905 दिनांक 29.09.2018 के परिप्रेक्ष्य में, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-21 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, निम्न सूची के कालम नं (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विधानसभा चुनाव-2018 के शांतिपूर्वक सम्पादन हेतु उनके नाम के समक्ष कालम नं. (4) में दर्शित क्षेत्र के लिए उन्हें विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करती है और उन्हें संहिता के अधीन विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करती है, अर्थात् :-

विधानसभा निर्वाचन-2018, उड़नदस्ता/स्थैतिक निगरानी दल हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी के नाम

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	क्षेत्र के नाम जहां पर उड़न दस्तों की नियुक्ति की गई है।
1	2	3	4
कोरिया			
1	श्री भूपेन्द्र कुमार सोनवानी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी थाना प्रभारी निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला कोरिया
2	श्री के.एस. कवर	सहायक वन संरक्षक, चौकी प्रभारी निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला कोरिया
3	श्री एस.एल. वर्मा	सहायक वन संरक्षक वन मण्डल बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
4	श्री सी.एम. साक्य	सहायक वन संरक्षक वन मण्डल मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
5	श्री संजय राय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	सम्पूर्ण जिला कोरिया
6	श्री राजकुमार उरावं	सहायक संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान	सम्पूर्ण जिला कोरिया
7	श्री अनील कुमार निगम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
8	श्री संजय दुबे	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत नईलेदरी	सम्पूर्ण जिला कोरिया
9	श्री अरूण कुमार धव	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
10	श्री एम.एस. केशर	सहायक वन संरक्षक वन मण्डल मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
11	श्री रायसिंह मार्को	वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र चिरमिरी	सम्पूर्ण जिला कोरिया
12	श्री एम.एल. वर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खड़गवां	सम्पूर्ण जिला कोरिया
13	श्री अखिलेश राठौर	उप अभियन्ता जल संसाधन	सम्पूर्ण जिला कोरिया

14	श्री पी.आ. फुलेकर	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप सम्भाग बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
15	श्री जानपुंज	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा	सम्पूर्ण जिला कोरिया
16	श्रीमती जैनी ग्रेस कुजूर	सहायक वन संरक्षक वन मण्डल बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री कन्हैया कुमार सिंह,	उप अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
2	श्री नूपचन्द्र मेश्राम	कृ.वि.अधि., कार्यालय भू.सं. केन्द्र जनकपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
3	कुवर बहादुर सिंह	उप वन क्षेत्रपाल कोटाडोल रेन्ज वन मण्डल	सम्पूर्ण जिला कोरिया
4	श्री एम.सी. गुप्ता,	ग्रा.कृ.वि.अधि. सोनहत	सम्पूर्ण जिला कोरिया
5	विनोद कुमार साहू, उ	प अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
6	श्री संतोष ओहदार,	ग्रा.कृ.वि.अधि. सोनहत	सम्पूर्ण जिला कोरिया
7	श्री विजय कुमार भारती	उप अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
8	श्री रवि गुप्ता	ग्रा.कृ.वि.अधि. मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
9	श्री सीताराम तिवारी,	उप वन क्षेत्रपाल केल्हारी रेन्ज वन मण्डल मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
10	श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर	ग्रा.कृ.वि.अधि. मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
11	श्री सुरजीत सिंह कंवर	उप अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
12	श्री सुभाष कुमार निर्गम,	कृ.वि.अधि. भू.सं.केन्द्र मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
13	श्री गोमती प्रसाद गुप्ता,	उप अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
14	श्री मान सिंह मराबी,	ग्रा.कृ.वि.अधि. मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
15	श्री रजत अग्रवाल,	उप अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
16	श्री संजय कुमार	अमलेश, ग्रा.कृ.वि.अधि. मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
17	श्री कृष्ण कुमार सिदार,	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला कोरिया
18	श्री सुरेश कुमार जागड़े,	ग्रा.कृ.वि.अधि. खड़गवां	सम्पूर्ण जिला कोरिया
19	श्री छत्रपाल बंजारे,	उप अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
20	श्री अशोक कुमार	ग्रा.कृ.वि.अधि. खड़गवां	सम्पूर्ण जिला कोरिया
21	श्री मनोज कुमार,	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला कोरिया
22	श्री ठाकुर सिंह देव,	व.ग्रा.कृ.वि.अधि. बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
23	श्री कमल कुमार तिवारी,	उप वन क्षेत्रपाल बैकुण्ठपुर रेन्ज वन मण्डल बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
24	श्री एम.के. माईकल,	ग्रा.कृ.वि.अधि. बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
25	श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा,	उप अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
26	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता,	ग्रा.कृ.वि.अधि. बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
27	श्री अजय सिंह कुशवाहा,	सहायक संचालक उद्यान बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
28	मो. शाहिद अन्सारी,	ग्रा.कृ.वि.अधि. बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
29	श्री आजाद कुमार एक्का,	उप अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
30	संतोष कुमार भगत,	ग्रा.कृ.वि.अधि. बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया

सूरजपुर

1	श्रीमती अमृता सिंह	नायब तहसीलदार सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
2	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	उपअभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग प्रेमनगर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
3	श्रीमती गरिमा ठाकुर	नायब तहसीलदार पिन्खा	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
4	श्री अजय कुमार पटेल	उप अभियन्ता कार्या. छ. ग. ग्रा.स.वि.अभिकरण सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
5	श्री सबाब खान	तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी रामानुजनगर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
6	श्री मानवेन्द्र	उप अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
7	श्री तीरथ प्रसाद जायसवाल	प्रभारी तहसीलदार कार्यपालिक दंडाधिकारी प्रेमनगर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर

8	श्री सबल साय तिकी	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
9	श्री सालिक राम गुप्ता	नायब तहसीलदार ओडगी	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
10	श्री किशोर कुमार खलखो	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
11	श्री एसके० मरकाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
12	श्री आभाष कुमार सिन्हा	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
13	श्री अनिल अग्निहोत्री	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भैयाथान	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
14	पंकज कुमार सिन्हा	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
15	सुश्री पुनम रश्मि तिग्गा	नायब तहसीलदार प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
16	मो. कैफ आजम	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
17	श्रीमती संगीता साय	नायब तहसीलदार भटगांव	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
18	श्री योगेन्द्र कुमार मिश्रा	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
19	सुश्री ऋतुराज सिंह	नायब तहसीलदार	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
20	श्री आर० सी० शर्मा	उप अभियंता, लो० स्वा० यां० विभाग उपसंभाग प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
21	श्री आ० पी० सिंह	प्रभारी तहसीलदार प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
22	श्री पंकज कुमार गुप्ता	उपअभियंता, ग्रा० यां० से० उपसंभाग प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री आर० बी० शिवहरे	उपअभियंता, जलसंसाधन संभाग सूरजपुर, उपसंभाग प्रेमनगर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
2	श्री अमित बंजारे	उपअभियंता, छ० ग० ग्रा० स० वि० अभि० सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
3	श्री के० आर० गुप्ता	उपअभियंता, लो० स्वा० यां० विभाग उपखंड सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
4	श्री कल्याण सिंह पोर्ते	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग प्रेमनगर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
5	श्री एच० के० शुक्ला	उपअभियंता, जल संसाधन संभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
6	श्री शिवबचन सिंह	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
7	श्री दीपक कुमार गोयल	उप अभियंता जल संसाधन संभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
8	श्री निखिल कुमार यादव	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
9	श्री विकास प्रशांत सिंह	उप अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, उपखंड-सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
10	श्री निखिल कुमार यादव	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
11	श्री अविनाश मिंज	उप अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, उपखंड-ओडगी	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
12	श्री लोकेश राजवाड़े	उपअभियंता, जल संसाधन विभाग सूरजपुर, उपसंभाग ओडगी	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
13	श्री पी० के० एक्का	उपअभियंता, जल संसाधन सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
14	श्री जानेश मिश्रा	उपअभियंता, लोक स्वा० यां० विभाग उपसंभाग प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर

बलरामपुर

1	श्री पंच राम सलामे	नायब तहसीलदार रामानुजगंज	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
2	श्री अनुरंजन लकड़ा	निरीक्षक थाना बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
3	श्री अमित केरकेड़ा	नायब तहसीलदार	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
4	सीता राम धुव	निरीक्षक बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
5	श्री विवेक गोहिया	नायब तहसीलदार	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
6	श्री एम डी देशमुख	उप निरीक्षक कुसमी	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री केशव राम वासनिक	नायब तहसीलदार वाइफनगर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
2	श्री जगरनाथ सिंह	राजस्व निरीक्षक बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
3	श्री प्रमोद कुमार पटेल	नायब तहसीलदार शंकरगढ़	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर

सरगुजा

1	श्री राजपति मिश्रा	सहायक यंत्री, उर्जा विभाग, छ.ग.रा.वि.मं. अम्बिकापुर,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
2	श्री भगवान चरण अग्रवाल,	सहायक अभियंता, प्र.ग्रा.स.यो. अम्बिकापुर,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
3	श्री वेद प्रकाश पाण्डेय,	सहा. अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
4	श्री एन.के.जैन,	उप यंत्री सिविल (आर.ई.एस.) जनपद पंचायत लुण्ड्रा	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
5	श्री सी.पी.सिंह,	उपयंत्री, जनपद पंचायत लुण्ड्रा	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
6	श्री अभय नारायण सिंह,	सहा. यंत्री, पंचायत एवं ग्रा.वि. विभाग,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
7	श्री रोशन नागवंशी	सहायक यंत्री, उर्जा विभाग, कार्या. यंत्री (शहर) संभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
8	श्री राजीव कुमार पाठक,	सहा. अभि. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग, अम्बिकापुर,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
9	श्री प्रभुदास टोप्पो,	सहा. अभियंता, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर, गंगा कछार	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
10	श्री संजय कुमार मिंज,	सहायक अभियंता, जल संसाधन, सं. क्र. 1, अम्बिकापुर,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री झंगलराम सांडे	सहा. अभि. उर्जा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय सरगुजा,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद असाटी,	सहा. अभि. वि./सि. जल संसाधन विभाग, मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
3	श्री देवेन्द्रनाथ मिश्र	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
4	श्री गौरव सिंह गहरवार,	बा.वि.परि.अधिकारी, लुण्ड्रा, म.एव.बा. विकास विभाग, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
5	श्री श्रीकांत कसेर,	सहा. अनुसंधानाधिकारी, अजा/अजजा विभाग, अम्बिकापुर,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
6	श्री सुनील दत्त पाण्डेय,	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
7	श्री अरविन्द सिंह,	मण्डल संयोजक, आदिम जाति विभाग, उदयपुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
8	श्री दुष्यंत बजाज,	उप यंत्री, न.पा.नि. अम्बिकापुर,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
9	श्री सतीश कुमार एक्का,	उपअभियंता, जनपद पंचायत सीतापुर,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
10	श्री नारायण सिंह ठाकुर,	सहायक संचालक नगरीय प्रशासन, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर,	सम्पूर्ण जिला सरगुजा

जशपुर

1	1.श्री युवराज सिंह	तहसीलदार, जशपुर	सम्पूर्ण जिला जशपुर
2	2.श्री अमरेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार, मनोरा	सम्पूर्ण जिला जशपुर
3	3. श्री सुनील कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार, बगीचा	सम्पूर्ण जिला जशपुर
4	4. श्री किशोर कुमार शर्मा	नायब तहसीलदार, कुनकुरी	सम्पूर्ण जिला जशपुर
5	5. श्री दिपेन्द्र कुमार सिन्हा	बी.आर.सी. दुलदुला	सम्पूर्ण जिला जशपुर
6	6. श्री एल. के.राठिया	नायब तहसीलदार फरसाबहार	सम्पूर्ण जिला जशपुर
7	7. सुश्री प्रीती शर्मा,	नायब तहसीलदार पथलगांव	सम्पूर्ण जिला जशपुर
8	8. श्री दिलीप कुमार खांडे,	नायब तहसीलदार पथलगांव	सम्पूर्ण जिला जशपुर
9	9. श्री बुधवार सिंह,	नायब तहसीलदार कांसाबेल	सम्पूर्ण जिला जशपुर

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री अजय कुमार चौबे	बी.आर.सी. जशपुर	सम्पूर्ण जिला जशपुर
2	श्री तरुण कुमार पटेल	बी.आर.सी. मनोरा	सम्पूर्ण जिला जशपुर
3	श्री रामेश्वर साहू	मंडल संयोजक	सम्पूर्ण जिला जशपुर
4	श्री कृष्ण कुमार राठौर	बी.आर.सी. बगीचा	सम्पूर्ण जिला जशपुर
5	श्री बसंत कुमार गृही	बी.आर.सी. बगीचा	सम्पूर्ण जिला जशपुर

रायगढ़

1	श्री आशीष कुमार सक्सेना	तहसीलदार, घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
2	श्री टी.आर. कश्यप	नायब तहसीलदार, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
3	कुमारी नीतू भगत	नायब तहसीलदार, लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
4	श्री शशांक शेखर गुप्ता	प्र. तहसीलदार, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
5	कुमारी रेवती जांगड़े	नायब तहसीलदार पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
6	श्री बंदेराम भगत	प्र० तहसीलदार पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
7	श्री गोविन्द प्रसाद डहरिया	तहसीलदार, बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
8	कुमारी प्रेमा किस्पोष्टा	नायब तहसीलदार बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
9	सुश्री कमलावती सिंह	नायब तहसीलदार सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
10	श्रीमती अवन्ति गुप्ता	तहसीलदार, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
11	श्री लीलाधर चन्द्रा	नायब तहसीलदार (परि.) रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
12	श्री विवेक कुमार पटेल	नायब तहसीलदार, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
13	कुमारी माया अंचल	नायब तहसीलदार/प्र० तहसीलदार, धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
14	श्री उमेश्वर बाज	नायब तहसीलदार, धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
15	श्री हेमराज धुव	अति. तहसीलदार, उप तहसील कापू	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री बालचन्द्र सिंह	प्र० तहसीलदार लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
2	श्री बंदेराम भगत	प्र० तहसीलदार पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
3	श्री सतीश रामटेके	नायब तहसीलदार/प्र० तहसीलदार सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
4	श्रीमती अवन्ति गुप्ता	तहसीलदार, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
5	श्री उमेश्वर बाज	नायब तहसीलदार, धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

कोरबा

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री राम रतन सिंह कंवर	श्रम निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
2	हरिश चन्द्र शेन्द्रे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
3	सुनील कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
4	श्री निलांबर सिंह कंवर	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
5	जितेन्द्र कुमार पुहुप	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
6	श्री रमेश कुमार साहू	श्रम निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
7	श्री हरीश कुमार	खाद्य निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
8	मनीष कुमार डिक्सेना	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
9	श्री शुभम मिश्रा	खाद्य निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
10	श्री ओ.एस. पवार	मत्स्य निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
11	श्री रविशंकर राठौर	वाणिज्य कर निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
12	राम कुमार नेटी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
13	श्री विमल मिश्रा	श्रम निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
14	श्री संदीप कुमार	खाद्य निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
15	सुरेश कुमार नागदेव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
16	श्री हेरा राम देवांगन	मत्स्य निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा

17	श्री मनोज मरकाम	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
18	श्री भीम राज मेश्राम	मत्स्य निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
19	श्री राहुल गुलाटी	खनिज निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
20	अखिलेश कुमार देवांगन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
21	श्री फालेश्वर सिंह	मत्स्य निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
22	श्री रेखालाल राजपुत	खनिज निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
23	श्री यज्ञ नारायण द्विवेदी	मत्स्य निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
24	श्री बी.एल.देवांगन	श्रम निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
25	श्री भगत खेस	वाणिज्य कर निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
26	श्री हुंकार सिंह सिदार	श्रम उप निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
27	श्री राजन कौशिक	सहायक निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
28	श्री एल.डी. वैष्णव	श्रम उप निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
29	श्री विद्यानन्द पटेल	खाद्य निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
30	श्री सबल सिंह मरकाम	वाणिज्य कर निरीक्षक, कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा

बिलासपुर

1	श्री ए.के. चटर्जी	उप वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, जिला बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
2	श्री ए.के. व्यास	उप वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
3	श्री आर.के. पाण्डेय	वनक्षेत्रपाल, मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
4	श्री आर.के. धुव	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
5	श्री चन्द्रभान पटेल	श्रम निरीक्षक, कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
6	श्री फणीश्वरन विश्वकर्मा	श्रम निरीक्षक, कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
7	श्री अरूण कुमार घाटगे	वनक्षेत्रपाल, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
8	श्री बलरामजी तिवारी	वनक्षेत्रपाल, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
9	श्री सी.आर. नेताम	वनक्षेत्रपाल, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
10	श्री अनिमेष सिंह	वन क्षेत्रपाल, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
11	श्री कोमलदास धृतेश	वनक्षेत्रपाल, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
12	श्री शैलेश कुमार बघेल	वनक्षेत्रपाल, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
13	श्री सुनील कुमार बच्चन	वनक्षेत्रपाल, अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, कोनी, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
14	श्री तुलाराम जायसवाल	सहा. वन संरक्षक, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
15	श्री विजय सिंह कंवर	सहा. अनुसंधान अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
16	श्री लक्ष्मण चौहान	सहा. अनुसंधान अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
17	श्री गोपाल सिंह ठाकुर	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान (नापतौल), बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
18	श्री जी.एस. स्वर्णकार	प्रबंधक, सीएसआईडी, सिरगिट्टी बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
19	श्री सुरेश कुमार विश्वकर्मा	वनक्षेत्रपाल, अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, कोनी, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
20	श्री माखन सिंह परस्ते	वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, उद्यान, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

21	श्री पी.एल. परौहा	सहा. मिट्टी परीक्षण अधिकारी, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
22	श्री आशुतोष डडसेना	सहा. पंजीयक, कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
स्थैतिक निगरानी प्रभारी			
1	श्री संजय त्रिपाठी	वन क्षेत्रपाल, मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
2	श्री सुभाशु साहू,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
3	श्री हर्षकुमार साहू,	कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
4	श्री आर.के. सिन्हा	वन क्षेत्रपाल, मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
5	श्री छोटेलाल भट्ट	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
6	श्री कमलप्रसाद कतिया,	उप अभियंता उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
7	श्री अर्जुन सिंह पटेल	वन क्षेत्रपाल, मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
8	श्री जवाहरलाल इक्का,	उप अभियंता, उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
9	श्री श्यामसुन्दर ठाकुर,	उप अभियंता, उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
10	श्री एन.के. भटनागर	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, पेण्ड्रा रोड.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
11	श्री शिवकुमारसिंह सिकरवार,	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रा रोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
12	श्री महेन्द्र प्रकाश यादव,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रा रोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
13	श्री सी.एस. भारद्वाज	सहायक भौमिकी विद, कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
14	श्री महेश प्रसाद शर्मा,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रा रोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
15	श्री होरीसिंह ठाकुर,	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद रतनपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
16	श्री राकेश कुमार बत्रा,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रा रोड,	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
17	श्री स्वपनिल मिश्रा,	उप अभियंता, नगर पंचायत पेण्ड्रा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
18	श्री के.सी. गुप्ता,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

19	श्री एस.आर. चन्द्रा	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
20	श्री ए.के. नाथ,	सहायक अभियंता, नगर पालिका परिषद तखतपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
21	श्री डी.आर. कुर्रे, उप	अभियंता, नगर पालिका परिषद तखतपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
22	श्री समयलाल कैवर्त	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
23	श्री चंद्रहास शुक्ला,	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
24	श्री जी.आर.शर्मा,	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
25	श्री काशी प्रसाद मिश्रा	सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, मण्डी परिसर, तोरवा, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
26	श्री आदर्श तिवारी,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि/यां लाइट मशीनरी एवम गेट संभाग सकरी	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
27	श्री सुरेन्द्र पात्रे	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि/यां लाइट मशीनरी एवम गेट संभाग सकरी	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
28	श्री अलेक्सियुस एक्का	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बिल्हा, जिला बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
29	श्री टी.के. बोस,	उप अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
30	श्री सुशील कुमार धुव,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, सेतु निर्माण संभाग, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
31	श्री जे.बी. सिंह	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, तिफरा, जिला बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
32	श्री बसंत कुमार कश्यप,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, सेतु निर्माण संभाग, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
33	श्री नंदन प्रसाद चन्द्राकर,	उप अभियंता, कार्यालय कार्य. अभि., सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
34	श्री आर.पी. तिवारी	सहा. वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, कोनी, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
35	श्री मिठाईलाल अवधेलिया,	उप अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण वि., बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
36	श्री नरेन्द्र कुमार कौशिक	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
37	श्री आनंद शुक्ला,	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना वृत्त, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
38	श्री रामनरेश शर्मा,	उप अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक स्वा. यांत्रिकीय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
39	श्री सी.आर. सोनवानी,	प्रभारी सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
40	आर. पी. प्रजापति	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, खण्ड-1, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
41	श्री अश्वनी कुमार शर्मा,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

42	श्री रुबेन केरकेडा,	उप अभियंता, कार्यालय कार्य. अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
43	श्री लखनलाल रात्रे	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, उद्यान, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
44	श्री जयंत कुमार साहू,	उप अभियंता, नगर पंचायत मल्हार	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
45	श्री सौरभ कुमार गुप्ता,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, सेतु निर्माण संभाग, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
46	श्री गोरेसिंह राज	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
47	श्री संजय कुमार वर्मा,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, सेतु निर्माण संभाग, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
48	श्री रामेश्वर मरकाम,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
49	श्री जसवंत सिंह क्षत्री,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
50	श्री रमेश कुमार रोहिणी,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, सेतु निर्माण संभाग, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
51	श्री उदयभान सिंह	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, बिलासपुर.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

मुंगेली

1	श्री टी.एस. मरकाम,	तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी लोरमी,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
2	श्री जी.एस. खेंगर,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
3	श्री मुकेश देवागन,	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी लोरमी,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
4	श्री एम.एल. टण्डन,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि, मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
5	श्री पुलकित साहू,	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
6	श्री गंभीर सिंह धुर्वे,	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
7	श्री अविनाश ठाकुर,	तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
8	श्री कपिल सिंह गंगेशर,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
9		नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी उप तहसील जरहागांव मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
10	श्री बी.बी.एल. साहू,	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
11	श्री उमाकांत जायसवाल,	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
12	श्री प्यारेलाल बनर्जी,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
13	श्री सुभाष शुक्ला,	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
14	श्री सुरेश कुमार सोनी,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
15	श्री अश्वनी कंवर,	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पथरिया,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
16	श्री सी.डी. जांगडे,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री योगेश दुबे,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
2	श्री के.पी. डिघोरे,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
3	श्री एन.के. बंजारा,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली

4	श्री किशनलाल मनहर,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उपसंचालक कृषि मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
5	श्री जय सिंह,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
6	श्री शिवकुमार खरे,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
7	श्री पी.सी. अग्रहरी,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
8	श्री मनहरण लाल कुरे,	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, कृषि, मुंगेली,	सम्पूर्ण जिला मुंगेली

जांजगीर-चांपा

1	श्री संत कुमार उपाध्याय	सहा. विकास विस्तार अधिकारी, अकलतरा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
2	श्री विमल गुप्ता	पंचायत इंस्पेक्टर, बलौदा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
3	श्री लव अग्रवाल	सब इंजी. नगर पालिका अकलतरा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
4	श्री अशोक चावला	सहा. विकास विस्तार अधिकारी नवागढ़	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
5	श्री आशीष दीवान	खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
6	श्री पीडी जाडे	माइनिंग इंस्पेक्टर	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
7	श्री शशि शुक्ला	मुख्य न.प.अधि. नगर पंचायत सारागांव	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
8	श्री रविन्द्र कुमार पैकरा	उप अभियंता जन.प.सक्ती	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
9	श्री शिवकुमार यादव	मुख्य न.प.अधिकारी नगर पंचायत बाराद्वार	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
10	श्री देव प्रसाद साहू	मुख्य न.प.अधिकारी नगर पंचायत डभरा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
11	श्री रामलाल चौधरी	उप अभियंता नगर पंचायत चन्द्रपुर	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
12	श्री कमल कृष्ण बरेठ	एडी.ओ. जन.प.मालखरौदा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
13	श्री वशिष्ठ कुमार ओझा	मु.न.प.नगर पंचायत जैजैपुर	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
14	श्री देवारीलाल साहू	सहा. विकास वि.अधिकारी.ज.प.जैजैपुर	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
15	श्री रामकृपाल श्रीवास	सहा. विकास वि.अधिकारी.ज.प.जैजैपुर	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
16	श्री मुकेश पुरी गोश्वामी	सहा. विकास वि.अधिकारी.ज.प.पामगढ़	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
17	श्री रामनारायण पाण्डेय	मुख्य न.प.अधि. नगर पंचायत नवागढ़	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
18	श्री कन्हैयालाल निर्मलकर	मुख्य न.प.अधि. नगर पंचायत खरौद	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री मोती लाल पटेल	सहा.अभि.नगर पालिका अकलतरा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
2	श्री आनंद कुमार निषाद	मु.नि.प.नगर पंचा. बलौदा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
3	श्री गोविंद राम कश्यप	रेवेन्यु इंस्पेक्टर जांजगीर	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
4	श्री देवेन्द्र कुमार कैवश्य	सब इंजीनियर नगरपालिका चांपा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
5	श्री भारती पटेल	सब इंजीनियर जनपद पंचायत सक्ती	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
6	श्री आशीष बाजपेयी	सब इंजीनियर जनपद पंचायत डभरा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
7	श्री लक्ष्मी कुमार जांगडे	उप अभियंता जन.प.मालखरौदा	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
8	श्री गोविंदराम अनंत	आर.आई. जैजैपुर	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
9	श्री अनिल कुमार मोदी	उप अभियंता जन.पंचा.पामगढ़	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा
10	श्री रेशमलाल देवांगन	रेवेन्यु इंस्पेक्टर नगर पंचायत नवागढ़	सम्पूर्ण जिला जांजगीर.चांपा

महासमुन्द

1	श्रीमती ललिता भगत	तहसीलदार तहसील सरायपाली	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
2	श्री सदानंद चौधरी	उप अभियंता जल संसाधन सरायपाली	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
3	श्री सुशील पैकरा	उप वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय, सरायपाली,	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
4	श्री लक्ष्मण मिश्रा	तहसीलदार, तहसील बसना	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
5	श्री खिलावन प्रसाद पुरैना	उप वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय, बसना	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द

6	श्री विकास सोनी	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग, बसना	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
7	श्री अशोक कुमार भोई	तहसीलदार, तहसील पिथौरा	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
8	श्री कमलेश चन्द्राकर	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बागबाहरा	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
9	श्री भीमराव घोडेसवार	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग, महासमुन्द	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
10	श्री भागीरथी खाण्डे	तहसीलदार, तहसील महासमुन्द	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
11	मोहम्मद ताबीस खान	उप अभियंता, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, महासमुन्द	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
12	श्री दिलीप कुमार चन्द्राकर	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बागबाहरा	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री राममूर्ति दीवान	नायब तहसीलदार तहसील सरायपाली	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
2	श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर	नायब तहसीलदार तहसील बसना	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
3	श्री गगन शर्मा	नायब तहसीलदार, तहसील बागबाहरा	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द
4	श्री देवेन्द्र नेताम	नायब तहसीलदार, तहसील महासमुन्द	सम्पूर्ण जिला महासमुन्द

बलौदाबाजार

1	श्री अश्वनी कुमार चंद्रा	नायब तहसीलदार बिलाईगढ़ राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
2	श्री श्रीधर पण्डा	नायब तहसीलदार कसडोल राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
3	कु० ममता ठाकुर	नायब तहसीलदार भटगांव राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
4	श्री शंकर लाल सिन्हा	नायब तहसीलदार लवन राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
5	कु० प्रियंका धीवर	नायब तहसीलदार पलारी राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
6	कु० नेहा उपाध्याय	नायब तहसीलदार कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
7	श्री यशवंत कुमार राज	नायब तहसीलदार सिमगा राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
8	डा० अंजली शर्मा	नायब तहसीलदार बलौदाबाजार राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
9	सुश्री रजनी भगत	तहसीलदार राजस्व राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
10	श्री मयंक कुमार अग्रवाल	नायब तहसीलदार निपनिया राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
11	श्री प्रतीक जायसवाल	नायब तहसीलदार सिमगा राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
12	श्रीमती जालो जेम्स	नायब तहसीलदार भाटापारा राजस्व	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री ए. के. वनवासी	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
2	श्री नेतराम टण्डन	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
3	श्री सुरेश कुमार पैकरा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
4	श्री किरीत कुमार साहू	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
5	श्री विजेन्द्र कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
6	श्री नाथूराम महोबिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
7	श्री पुष्पेन्द्रधर दीवान	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
8	श्री कंवल सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार

9	श्री भानुप्रताप सिंह कंवर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
10	श्री दुष्यंत आडिल	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
11	श्री जशवंत कुमार जायसवाल	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
12	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
13	श्री अक्षय कुमार सिंह	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
14	श्री किशोर कुमार मरकाम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
15	श्री लिलेश्वर पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
16	श्री राम प्रसाद पेन्द्रो	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
17	श्री रविन्द्र सिंह मेश्राम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
18	श्री योगेश्वर कुमार खुंटे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
19	श्री सुरेन्द्र कुमार सोनखुरिया	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
20	श्री गोपी वर्मा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
21	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
22	श्री अशोक मेश्राम	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
23	श्री अशोक कुमार सोनी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
24	श्री गंगाराम वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
25	श्री मनोज कुमार खाण्डेकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
26	श्री सोमेश्वर लहरे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
27	श्री सचिन कुमार वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बलौदाबाजार	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
28	श्री तरुण कुमार साहू	उप अभियंता, ग्रामीण कृषि सेवा सिमगा	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
29	श्री भीमराम सोमनकर	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन वि. भाटापारा	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
30	श्री अमर सिंह पैकरा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सिमगा	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
31	श्री वासुदेव साहू	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन वि. भाटापारा	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
32	श्री महेन्द्र कुमार बंजारे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भाटापारा	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
33	श्री सियाराम हिरवानी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भाटापारा	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
34	श्री चन्द्रमौली शर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भाटापारा	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
35	श्री अवधेश उपाध्याय	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भाटापारा	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार
36	श्री कुमार ऐश्वर्य सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भाटापारा	सम्पूर्ण जिला बलौदाबाजार

रायपुर

1	श्री टी. आर. माहेश्वरी,	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तिल्दा	सम्पूर्ण जिला रायपुर
2	श्री अमित बेक,	अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धरसीवा,	सम्पूर्ण जिला रायपुर
3	श्री बाबूलाल कुर्रे,	नायब तहसीलदार कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
4	श्री कृष्ण कुमार जायसवाल,	प्रभारी तहसीलदार नजूल एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
5	श्रीमती सरिता मढ़रिया,	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
6	श्री सृजन सोनकर,	नायब तहसीलदार कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
7	श्री मूलचंद चोपड़ा,	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसील आंग	सम्पूर्ण जिला रायपुर
8	श्री अनुज कुमार पटेल	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मंदिरहसीद	सम्पूर्ण जिला रायपुर
9	श्री शशिकांत कुर्रे,	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अभनपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री घनश्याम यादव,	वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी, तिल्दा	सम्पूर्ण जिला रायपुर
2	श्री मोती लाल साहू,	वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी, तिल्दा	सम्पूर्ण जिला रायपुर
3	श्री प्रशांत कुमार साहू	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यालय जनपद पंचायत, धरसीवा	सम्पूर्ण जिला रायपुर
4	श्री के.के. खूटे	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यालय जनपद पंचायत, धरसीवा	सम्पूर्ण जिला रायपुर
5	श्री विष्णु सिंह ठाकुर	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खोरा	सम्पूर्ण जिला रायपुर
6	श्री सरिता मढ़रिया	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
7	कु. ज्योति सिंह,	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
8	श्री टी.आर. साहू	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यालय जनपद पंचायत, धरसीवा	सम्पूर्ण जिला रायपुर
9	श्री विजेन्द्र नाथ दुबे	वनक्षेत्रपाल, कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
10	श्री परस राम नेताम	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लाभांडी, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
11	श्री ओ.पी. साहू	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
12	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
13	श्री सुहाब कुमार पाण्डेय	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
14	बेन्जामिन सिक्का,	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अभनपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
15	श्री गिरधारी दास वैष्णव,	सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
16	श्री के.आर. मुदलियार	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
17	श्री अशोक कुमार गुप्ता	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लाभांडी, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
18	श्री महेन्द्र पाल सिंह	सहायक अभियंता, भू-जल संवर्धन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर

19	श्री कृष्ण कुमार जायसवाल	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
20	श्री राजेन्द्र हिरनवार	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
21	श्री जागेश कुमार गोड़	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
22	श्री ब्रम्होन्द्र तिवारी	वन क्षेत्रपाल, कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
23	श्री खिलेश कुमार खवास	सहायक अभियंता, कार्यालय कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी, रविग्राम, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
24	श्री अमरेन्द्र बोस	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लाभांडी, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
25	श्री सतीश कुमार टण्डन	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यालय जनपद पंचायत, तिल्दा	सम्पूर्ण जिला रायपुर
26	श्री नेमसिंह वर्मा	वनक्षेत्रपाल, कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
27	श्री सुधाकर श्रीराम केकतपुरे	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लाभांडी, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
28	श्री राजेश कुमार तोमर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लाभांडी, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
29	श्री विजय सिंह सोनी	सहायक संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
30	श्री संजय घोष	उप संचालक, कार्यालय बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, लाभांडी, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
31	श्री राधेश्याम गभन	सहायक अभियंता, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
32	श्री आर. मुरली	अभियंता, कार्यालय, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
33	श्री अखिलेश जैन,	उप प्रबंधक, कार्यालय, बीज भवन, जी.ई. रोड, तेली बांधा रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
34	श्री अनुज कुमार पटेल,	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आरंग	सम्पूर्ण जिला रायपुर
35	श्री मोहन लाल थावरे,	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, आरंग	सम्पूर्ण जिला रायपुर
36	श्री चन्द्रकान्त राही,	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अभनपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
37	श्री अजय कुमार जैन,	उप अभियंता, जनपद पंचायत, तिल्दा	सम्पूर्ण जिला रायपुर
38	श्री कमलेश एक्का,	उप संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
39	श्री रामयश तिवारी,	सहायक संचालक, कृषि, कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
40	श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, अनुभाग क्र-1, रायपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
41	श्री कलनारायण चन्द्राकर,	मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी, अभनपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
42	श्री भोला राम लाउत्रे	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अभनपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर
43	श्री विकास गुप्ता	उप अभियंता, जनपद पंचायत, आरंग	सम्पूर्ण जिला रायपुर
44	श्री सोमकांत साहू	उप अभियंता, जनपद पंचायत, अभनपुर	सम्पूर्ण जिला रायपुर

गरियाबंद

1	श्री आर.के.रजक	उप अभियंता, जल संसाधन अनुभाग पाण्डुका	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
2	श्री एन.के.कन्नौज	उप अभियंता, जल संसाधन अनुभाग फिंगेश्वर	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
3	श्री गुप्तेश्वर साहू	उप अभियंता, जनपद पंचायत मैनपुर	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
4	श्री राजेन्द्र शुक्ला	उप अभियंता, जल संसाधन अनुभाग देवभोग	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री मनोज पैकरा	नायब तहसीलदार राजिम	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
2	श्री चन्द्रशेखर मण्डई	नायब तहसीलदार छुरा	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
3	श्री उत्तम सिंह धुव	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग गरियाबंद	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
4	श्री युवराम सिन्हा	उप अभियंता, जल संसाधन अनुभाग देवभोग	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
5	श्री कृष्णमूर्ति दीवान	नायब तहसीलदार, देवभोग	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद
6	श्री समीर शर्मा	नायब तहसीलदार, मैनपुर	सम्पूर्ण जिला गरियाबंद

धमतरी

1	श्री एन.के. नागवंशी	कार्य.अभि.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
2	श्री चंद्रहास नेताम	उप अभियंता जल प्रबंध संभाग, रूद्री	सम्पूर्ण जिला धमतरी
3	श्री प्रदीप सिन्हा	उप अभियंता कार्य.अभि.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
4	हेमलाल नवरंग	मंडी निरीक्षक नगरी कृषि उपज मंडी समिति नगरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
5	श्री फागदास साहू	मंडी निरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति नगरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
6	श्री तरुण कुमार धुर्वे	उप अभियंता कार्य.अभि.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
7	श्री उत्तम कुमार साहू	मण्डी निरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति नगरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
8	श्री पवन धुव	उप अभियंता कार्य.अभि.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
9	श्री मोहन नेताम	उप अभियंता कार्य.अभि.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
10	श्री संजय चंद्राकर	उप अभियंता कार्य.अभि.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
11	श्री शिव कुमार सिन्हा	उप अभियंता कार्य.अभि.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
12	श्री राजेन्द्र वर्मा	उप अभियंता जनपद पंचायत नगरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
13	श्री नितेश कुमार सिन्हा	कार्य.अभि.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी
14	श्री सरोज साहू	उप अभियंता कार्य.अभि.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी	सम्पूर्ण जिला धमतरी

बालोद

1	श्री मनोज कुमार नेताम	सहकारी निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला बालोद
2	श्री मनमोहित राम गोरे	आत.लेखा.परि.अधि.जन.पंचायत बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
3	श्री भूपेन्द्र कुमार मंडावी	सहकारी निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला बालोद
4	श्री कृष्ण कुमार धुरव	आत.लेखा.परि.अधि.जन.पंचायत बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
5	श्री जितेश कुमार साहू	सहकारी निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला बालोद
6	श्री रामकुमार सोनी	आत.लेखा.परि.अधिकारी	सम्पूर्ण जिला बालोद
7	श्री जितेन्द्र कुमार डहरे	सहकारिता निरीक्षक	सम्पूर्ण जिला बालोद
8	श्री परदेश राम देवहारे	आत.लेखा.परि.अधिकारी	सम्पूर्ण जिला बालोद
9	श्री सतीश सिंह राजपूत	फील्ड आफिसर	सम्पूर्ण जिला बालोद
10	श्री सुरेन्द्र कुमार चन्द्रकार	आत.लेखा.परि.अधि.	सम्पूर्ण जिला बालोद
11	श्री प्रभाकर मेश्राम	सहाकारिता निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्था बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
12	श्री सूर्यप्रकाश द्विवेदी	आत.लेखा. परि.अधि.	सम्पूर्ण जिला बालोद

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री राजेन्द्र कश्यप	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत गुरुर	सम्पूर्ण जिला बालोद
2	श्री अगेश्वर पटेल	ग्रा0वि0कृ0अधि0 उप संचालक कृषि बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
3	श्री मुकेश कुमार साकरकर	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत गुण्डरदेही	सम्पूर्ण जिला बालोद
4	श्री शाश्वत ठाकुर	ग्रा0वि0कृ0अधि0 कार्यालय उप संचालक कृषि बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
5	श्री याशकदत्त ज्योति	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत गुरुर	सम्पूर्ण जिला बालोद
6	श्री अनिल कुमार पराते	प्रेक्षेत्र अधिकारी कार्या. सहा. संचा. उद्यान बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
7	श्री युद्वपाल वासनिक	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा	सम्पूर्ण जिला बालोद
8	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	वरिष्ठ अधि.कार्या. सहा. संचा. उद्यान बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
9	श्री गुमानसिंह चन्द्राकर	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
10	श्री भूपेन्द्र सिंह राणा	ग्रा0वि0उ0अधि0 कार्या.सहा.संचा. उद्यान जिला बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
11	श्री प्रशांत कुमार शाडिल्य	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
12	श्री तरुण कुमार यदु	ग्रा0वि0उ0अधि0कार्या.सहा. संचा. उद्यान बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
13	श्री संतोषी पासी	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत डौण्डी	सम्पूर्ण जिला बालोद
14	श्री यशवंत कुमार धरुव	ग्रा0वि0उ0अधि0 कार्या.सहा.संचा. उद्यान जिला बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
15	श्री विनोद कुमार देवांगन	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत गुरुर	सम्पूर्ण जिला बालोद
16	श्री विजय निकोसे	प्राक्षेत्र अधिकारी कार्या.सहा.संचा उद्यान बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
17	श्री रामनारायण राठौर	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत गुरुर	सम्पूर्ण जिला बालोद
18	श्री अखिलेन्द्र कुमार जगबेड़ा	उ0वि0अधि0 कार्या.सहा.संचा. उद्यान बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
19	श्री अनुप रमन साहू	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत गुरुर	सम्पूर्ण जिला बालोद
20	श्री मयंक राय	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत गुण्डरदेही	सम्पूर्ण जिला बालोद
21	श्री कोमलसिंह धुव	उप अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जनपद पंचायत बालोद	सम्पूर्ण जिला बालोद
22	श्री रामयश पटेल	सहा0राजस्व निरी. कार्या नगर पंचायत डौण्डीलोहारा	सम्पूर्ण जिला बालोद

दुर्ग

1	श्री मो. रिजवान,	उप अभियंता, अवास एवं पर्यावरण, छ.ग. गृह निर्माण मंडल संभाग,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
2	श्री डी.के. झों,	उप अभियंता,कार्यपालन अभियंता, वि/यो लाईट	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
3	श्री ए.के. देवांगन	उप अभियंता,कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
4	श्री एस.के. चेलक	उप अभियंता ,कार्यपालन अभियंता वि/यो लाईट	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
5	श्री बृजभूषणलाल साहू	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
6	श्री ए.के. बघेल,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग

7	श्री महेन्द्र ठाकुर	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता वि/यो लाईट	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
8	श्री आर.एस. साहू	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
9	श्री प्रतीक मसीह	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
10	श्री आर.के. सिसोदिया	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
11	श्री अमित कुमार वर्मा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता वि/यो लाईट	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
12	श्री जी.पी. चन्द्राकर	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
13	श्री रविन्द्र वर्मा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
14	श्री आर.के. सोनी	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
15	श्री गौतम पुरी	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
16	श्री सुरेश कुमार वर्मा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
17	श्री जिनेश जैन,	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
18	श्री जी.डी. रोहित,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
19	श्री भूषण लाल साहू,	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
20	श्री हरीश श्रीवास्तव	उप अभियंता, सहायक अभियंता क्रेडा, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
21	श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता,	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, तांदुला जलसंसाधन,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
22	श्री टी.पी. साहू,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
23	श्री ईश्वर प्रसाद पटेल,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
24	श्री लीलाधर भूआर्य,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री तरुण कुमार किरण,	सहायक आयुक्त राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त 3	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
2	श्री कैलाश कुमार कवडकर	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
3	श्री असित गोलछा	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
4	लीलाधर ढीमर	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण विकास अभिकरण, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
5	श्री के.के. दास,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
6	अशोक कुमार चौहान	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन विभाग, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
7	ए.एम. झा	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन विभाग, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
8	उमेश कुमार गुप्ता,	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
9	सागर मारचट्टीवार	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण विकास अभिकरण, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
10	एस.के. जैन	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन विभाग, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
11	श्री संजय जलतारे	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
12	धीरेन्द्र सोनी	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण विकास अभिकरण, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
13	श्री मोहन लाल गुप्ता,	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
14	विजय कुमार मांडवे	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, परियोजना	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
15	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव,	उप अभियंता अनुविभागीय अधिकारी, वि./यॉ/आर,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग

16	श्री विपेन्द्र कुमार तिवारी,	उप अभियंता अनुविभगीय अधिकारी, वि./यॉ/आर,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
17	श्री राजकुमार जैन	उप. अभियंता कार्यपालन अभियंता तांदुला ,जल संसाधन विभाग, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
18	श्री भास्कर राव, औचार,	उप अभियंता, ग्रामीण, विकास	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
19	श्री रंजन भट्टाचार्य	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
20	श्री त्रिलोक कुमार डेहरिया	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा. संभाग दुर्ग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
21	श्री छत्र कुमार सोने,	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग द,	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
22	श्री राजेन्द्र सिंह,	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
23	श्री रविकांत श्रीवास्तव,	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास	सम्पूर्ण जिला दुर्ग
24	श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा,	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग	सम्पूर्ण जिला दुर्ग

बेमेतरा

1	श्री अखिलेशदत्त दुबे	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
2	श्री सतीश शर्मा	सहा. व.वि.अधिकारी, जनपद पंचायत साजा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
3	श्री दिलेश्वर साहू	खाद्य निरीक्षक, खाद्य विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
4	श्री बीरबल सिंह राजपूत	वरि.कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
5	श्री वशिष्ठ प्रताप	खाद्य निरीक्षक, खाद्य विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
6	श्री उमेश्वर सिंह	विकास वि. अधिकारी, जनपद पंचायत बेरला	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
7	श्री अरूण कुमार शर्मा	वरि.कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
8	श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर	खाद्य निरीक्षक, खाद्य विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
9	श्री लखन लाल निषाद	विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत नवागढ़	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री डी. आर. ठाकुर	कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
2	श्री प्रताप सिंह बघेल	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत साजा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
3	श्री नरेन्द्र नेताम	कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
4	श्री आर. एन. नामदेव	कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
5	श्री बी.पी. बंछोर	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
6	श्री संत कुमार बंजारे	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत बेरला	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
7	श्री देवनाथ मण्डावी	कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
8	श्री लक्ष्मी प्रसाद बंजारा	कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग बेमेतरा	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा
9	श्री पुरुषोत्तम पडौती	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत नवागढ़	सम्पूर्ण जिला बेमेतरा

कबीरधाम

1	श्री हेमंत कुमार पैकरा	नायब तहसीलदार पंडरिया	सम्पूर्ण जिला कबीरधाम
2	सिद्धी गबेल	नायब तहसीलदार कवर्धा	सम्पूर्ण जिला कबीरधाम
3	श्री संतोष धुर्वे	नायब तहसीलदार स.लोहारा	सम्पूर्ण जिला कबीरधाम
4	श्री अमन चतुर्वेदी	नायब तहसीलदार बोडला	सम्पूर्ण जिला कबीरधाम

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री कामेश्वर क्षत्री	राजस्व निरीक्षक पंडरिया, तह. पण्डरिया	सम्पूर्ण जिला कबीरधाम
2	श्री इरफानउलहक खान	राजस्व निरीक्षक, कुण्डा, तह. पण्डरिया	सम्पूर्ण जिला कबीरधाम
3	श्री पंचराम श्याम	राजस्व निरीक्षक, कुकदूर, तह. पण्डरिया	सम्पूर्ण जिला कबीरधाम

4	श्री प्रफुल्ल तिवारी	राजस्व निरीक्षक, बोड़ला, तह. बोड़ला	सम्पूर्ण जिला कबीरधाम
5	भूपेन्द्र बैष्णव	राजस्व निरीक्षक, दशरंगपुर, तह. कवर्धा	सम्पूर्ण जिला कबीरधाम
6	श्री ओ.पी. मिश्रा	राजस्व निरीक्षक, स-लोहारा, तह. स-लोहारा	सम्पूर्ण जिला कबीरधाम
राजनांदगांव			
1	श्री शिवअवतार रामपाल,	उप वन परिक्षेत्र अधिकारी सलहेवारा,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
2	श्री डी.सी. वर्मा,	उपभियन्ता, पिपरिया शीर्ष, जल संसाधन उप संभाग, खैरागढ़	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
3	श्री कमल सिंह सोलंकी,	उपभियन्ता, जल संसाधन, उप संभाग, छुईखदान	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
4	श्री युगल किशोर श्रीवास्तव,	उपअभियन्ता, लोनिवि, उपसंभाग डोंगरगढ़,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
5	श्री राकेश सागर, प्रशिक्षण	अधिकारी, आईटीआई, डोंगरगढ़	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
6	श्री अखिल खान,	राजस्व उपनिरीक्षक, नगर पालिका परिषद, डोंगरगढ़,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
7	श्री एस.के. नागेश्वर,	सहा. अभियन्ता, जल संसाधन, संभाग, राजनांदगांव	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
8	श्री हमीरचंद साहू,	उपअभियन्ता, परि. क्रिया ई. क्र. -1, छग्रासविअ, राजनांदगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
9	श्री ईश्वर डोनाडे,	उपअभियन्ता, परि. क्रिया ई. क्र. -1, छग्रासविअ, राजनांदगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
10	श्री एच.के. देशकर,	उपअभियन्ता, खातूटोला, बैराज, जल संसाधन, संभाग, डोंगरगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
11	श्री के.सी. चैरे, उपअभियन्ता,	जल संसाधन, बैराज संभाग, डोंगरगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
12	श्री देवेन्द्र गोस्वामी,	उप अभियन्ता, जनपद पंचायत, डोंगरगांव	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
13	श्री सुलेन्द्र साहू,	उप अभि, जनपद पंचायत, छुरिया,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
14	सुश्री उषा उईके,	उपअभि, उपअभि,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
15	श्री ए.के. गजमिये,	उप अभियन्ता, जल संसाधन, बैराज संभाग, डोंगरगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
16	श्री शम्भू यादव,	उपअभि, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग, चौकी,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
17	श्री एस.आर. कोराम,	उपअभियन्ता, जल संसाधन, उपसंभाग, मोहला,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
18	श्री डी.के. धवे,	उपअभियन्ता, जल संसाधन, उपसंभाग, मोहला,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
स्थैतिक निगरानी प्रभारी			
1	श्री लक्ष्मण राव,	अभियन्ता, पिपरिया शीर्ष, जल संसाधन, उपसंभाग, छुईखदान,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
2	श्री एम.के. देशमुख,	उपअभियन्ता, पिपरिया शीर्ष, जल संसाधन उपसंभाग,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
3	श्री प्रदीप कुमार बनवाले,	उपअभियन्ता, पिपरिया शीर्ष, जल संसाधन उपसंभाग, छुईखदान,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
4	श्री बी.एस. शर्मा,	उपअभि. पीएचई उपसंभाग, डोंगरगढ़	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
5	श्री ईश्वर प्रसाद चंद्राकर,	उपनिरीक्षक, कार्या. सचिव, कृषि उपज मण्डी, डोंगरगढ़	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
6	श्री आर.आर. कोचे,	सहा. प्राध्यापक, शास. नेहरू महाविद्यालय, डोंगरगढ़,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
7	श्री ए.आर. रंगारी,	उपअभि. लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
8	सुशांत कौशिक,	उपअभि. लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
9	श्री संतोष पंडोले,	उपअभि. लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
10	श्री जयकुमार जैन,	उपअभियन्ता, जल संसाधन, बैराज संभाग, डोंगरगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
11	श्री एस.के. अग्रवाल,	उपअभियन्ता, जल संसाधन, बैराज संभाग, डोंगरगांव	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
12	श्री मो. अनिश मनसूरी,	उपअभियन्ता, जल संसाधन बैराज, संभाग, डोंगरगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
13	श्री बी.पी. चैबे, वन परिक्षेत्र अधिकारी,	बागनदी, वनमण्डल, राजनांदगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
14	श्री संतोष पाण्डेय,	वि. ख. स्त्रोत समन्वयक, छुरिया,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
15	श्री व्ही.के. माहल,	उपअभि. मोंगरा परियोजना, जल संसाधन, नहर, उपसंभाग, क्र. 3, डोंगरगांव,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
16	श्री किशोर चंद्राकर,	उपअभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मोहला	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
17	श्री रविशंकर पाण्डेय,	उपअभियन्ता, जनपद पंचायत, मोहला	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव

18	श्री शंशीकांता साहू,	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मोहला,	सम्पूर्ण जिला राजनांदगांव
कांकेर			
1	श्री देवेंद्र सिरदार	उप अभियंता, नगर पंचायत, पखांजूर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
2	श्री पीताम्बर सिंह धुव	मुख्य नगर अधिकारी, नगर पंचायत, अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
3	श्री एच एस जुरी	सहायक विकास अधिकारी, जनपद पंचायत, अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
4	श्री तेज प्रकाश भास्कर	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय, अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
5	श्री दानेश्वर भट्ट	मुख्य नगर अधिकारी, नगर पंचायत, चारामा	सम्पूर्ण जिला कांकेर
6	श्री रामरुची पटेल	प्रधानाचार्य, सरकार स्कूल, लिलेझर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
7	श्री राम सिंह सेंगर	गार्डन इंचार्ज अधीक्षक, भंवरीगी, दूर्गकोंदल	सम्पूर्ण जिला कांकेर
8	श्री उमेश कुमार ठाकुर	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग भानुप्रतापुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
9	श्री लाल अजय बहादुर सिंह	मुख्य नगर अधिकारी, नगर पंचायत, कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
10	श्री केजू राम सिन्हा	सहायक कार्यक्रम समन्वयक, (आरजीएसएम) कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
11	श्री यतीश चंद्र शुक्ला	प्रधानाचार्य, सरकार स्कूल, मार्कोटोला, नरहरपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
12	श्री राज कुमार शर्मा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
13	श्री अमित बाला	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय, कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
स्थैतिक निगरानी प्रभारी			
1	श्री भुवन लाल कौशिक	उप अभियंता, नगर पंचायत, अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
2	श्री प्रकाश चंद्र मंडवी	उप अभियंता सिंचाई विभाग अंतागढ़	सम्पूर्ण जिला कांकेर
3	श्री वी जे करुणाकर	मुख्य नगर अधिकारी नगर पंचायत पखांजूर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
4	श्री प्रेम शंकर कंवर	उप अभियंता सिंचाई विभाग पखांजूर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
5	श्री हरि शरण सिंह क्षत्रिय	खाद्य निरीक्षक पखांजूर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
6	श्री संतोष कुमार धुव	उप अभियंता सिंचाई विभाग पखांजूर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
7	श्री राकेश नेताम	उप अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
8	श्री अनिल राम गोटा	सहायक विकास अधिकारी ब्लॉक शर्मा	सम्पूर्ण जिला कांकेर
9	श्री श्रवण कुमार मार्कम	उप अभियंता कार्यकारी अभियंता का कार्यालय पीडब्ल्यूडी (बी / एस) भानुप्रतापुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
10	श्री राकेश कुमार शोरी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, भानुप्रतापुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
11	श्री नारायण सिंह कोमरा	उप अभियंता, कार्यालय कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग भानुप्रतापुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
12	श्री सुरेश सिंह चौहान	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्गुकोंदल	सम्पूर्ण जिला कांकेर
13	श्री हेमंत दीवानंग	उप अभियंता, नगर परिषद, कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
14	श्री आरके नायक	सहायक विकास अधिकारी, जनपद पंचायत कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
15	श्री सुरेश कुमार वर्मा	कार्यकारी अधिकारी जिला अनंतवस्की कांकेर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
16	श्री कीर्ति नेताम	ब्लॉक लेवल इनवेस्टिगेटर (बीएलआई) योजना और सांख्यिकीय चारामा	सम्पूर्ण जिला कांकेर
17	श्री दशरथ मांडवी	ब्लॉक लेवल इनवेस्टिगेटर (बीएलआई) प्लान एंड स्टैटिस्टिकल भानुप्रतापुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
18	श्री गोविंदा दीवानंग	उप अभियंता नगर पंचायत नहरपुर	सम्पूर्ण जिला कांकेर
कोण्डागांव			

7	श्री कैलाश पोयम	नायब तहसीलदार जगदलपुर, राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
8	श्री रामचंद्र सेठिया	राजस्व निरीक्षक नजूल नवकरण जगदलपुर, भू अभिलेख विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
9	श्री लोकेश कोसमे	राजस्व निरीक्षक नानगुर, भू अभिलेख विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
10	श्री संतोष कुमार चंद्रसेन	राजस्व निरीक्षक तोकापाल, भू अभिलेख विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
11	श्री प्रमोद कुमार ठाकुर	राजस्व निरीक्षक लोहंडीगुडा, भू अभिलेख विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
12	श्री कान्ति कुमार	राजस्व निरीक्षक बास्तानार, भू अभिलेख विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
13	श्री मनहरण सिंह राठिया	नायब तहसीलदार दरभा, राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री रामचंद्र नेताम	जिला खनिज अधिकारी, खनिज विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
2	श्री चितरंजन दास	प्रभारी तहसीलदार बस्तर, राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
3	श्री परमेश्वर लाल मण्डावी	प्रभारी तहसीलदार बकावंड, राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
4	श्री सुन्दरलाल धृतलहरे	तहसीलदार जगदलपुर राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
5	श्री मनहरण सिंह राठिया	प्रभारी तहसीलदार दरभा, राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
6	श्री उत्तम प्रसाद रजक	तहसीलदार छिंदगढ़, राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
7	श्री राम सिंह सोरी	तहसीलदार लोहंडीगुडा, राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
8	श्री महेन्द्र साहू	प्रभारी तहसीलदार बास्तानार, राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर

दंतेवाड़ा

1	श्री अभिजीत राजभानू	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
2	सुश्री दीपिका देहरी	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी गीदम	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
3	श्री विद्याभूषण साव	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कुआकोंड़ा	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
4	श्री विनय देवांगन	तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कटेकल्याण	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
5	श्री पुष्पराज पात्र	नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बड़ेबचेली	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री पी.एन. आर. नायडू	रेंजर वन विभाग रेंज दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
2	श्री राधम पटेल	रेंजर वन विभाग रेंज बचेली	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
3	श्री सुकदास नाग	रेंजर वन विभाग रेंज बारसूर	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
4	श्री संतोष कुमार गुरला	डिप्टी रेंजर वन विभाग रेंज गीदम	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा
5	श्री दीपक कुमार बघेल	डिप्टी रेंजर वन विभाग रेंज गीदम	सम्पूर्ण जिला दंतेवाड़ा

बीजापुर

1	श्री योगेश यादव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीजापुर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
2	श्री अमजद जाफरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भैरमगढ़	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
3	श्री डी.पी.पटेल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भोपालपटनम	सम्पूर्ण जिला बीजापुर
4	श्री एस.बी.गौतम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उसूर	सम्पूर्ण जिला बीजापुर

सुकमा

1	श्री उत्तम प्रसाद रजक,	तहसीलदार तहसील छिंदगढ़	सम्पूर्ण जिला सुकमा
2	श्री हेमन्त लहरे,	नायब तहसीलदार तहसील सुकमा	सम्पूर्ण जिला सुकमा
3	श्री प्यारे लाल नाग,	नायब तहसीलदार तहसील दोरनापाल	सम्पूर्ण जिला सुकमा
4	श्री आर.पी.बघेल,	तहसीलदार तहसील कोन्टा	सम्पूर्ण जिला सुकमा

1	श्री आशाराम नुरुति	निरीक्षक थाना केशकाल	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
2	श्री भागीरथी धुव	निरीक्षक थाना विश्रामपुरी	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
3	श्री संतोष जायसवाल	उपनिरीक्षक थाना बांसकोट	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
4	श्री फैजूल होदा शाह	उपनिरीक्षक थाना धनोरा	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
5	श्री रामनंदन कोरोटी	सहायक उपनिरीक्षक थाना ईरागांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
6	श्री शिशिरकांत	उपनिरीक्षक थाना बड़ेडोंगर	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
7	श्री जितेन्द्र विजयवार	उपनिरीक्षक थाना उरन्दाबेड़ा	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
8	श्री हरिनंदन सिंह	निरीक्षक थाना फरसगांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
9	श्री हंसराम गौतम	निरीक्षक थाना कोण्डागांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
10	श्री सुरेश धुव	उपनिरीक्षक थाना माकड़ी	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
11	श्री मुकेश शर्मा	उपनिरीक्षक थाना मर्दापाल	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
12	श्री देवेन्द्र दर्रा	निरीक्षक थाना बयानार	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
13	श्री आलक्ष्मी राम	उपनिरीक्षक थाना केशकाल	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
14	श्री रोहित कुमार खुट्टे	उपनिरीक्षक थाना विश्रामपुरी	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
15	श्री राजकुमार कोमरा	सहायक उपनिरीक्षक थाना बांसकोट	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
16	श्री रामकृष्ण जैन	सहायक उपनिरीक्षक थाना धनोरा	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
17	श्री भोजराज भास्कर	सहायक उपनिरीक्षक थाना ईरागांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
18	श्री प्रदीप कुमार साहू	सहायक उपनिरीक्षक थाना बड़ेडोंगर	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
19	श्री सुरेश कुमार बघेल	उपनिरीक्षक थाना उरन्दाबेड़ा	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
20	श्री अजय झा	उपनिरीक्षक थाना फरसगांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
21	श्री भूषण चन्द्राकर	उपनिरीक्षक थाना कोण्डागांव	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
22	श्री सुमनलाल पोया	उपनिरीक्षक थाना माकड़ी	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
23	श्री गिरधारी साहू	उपनिरीक्षक थाना मर्दापाल	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव
24	श्री नकुल साहू	सहायक उपनिरीक्षक थाना बयानार	सम्पूर्ण जिला कोण्डागांव

नारायणपुर

1	श्री मितेश दुगे,	प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर
2	श्री एस पी सूर्यवंशी	सहायक खाद्य अधिकारी, नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर
3	श्री संतोष कुमार वर्मा	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री विशालसिंह धुव	उप अभियंता, कार्यालय जल संसाधन उप संभाग ओरछा	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर
2	श्री बिहारीलाल पोया	सहायक पंजीयक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर
3	श्री नारायणप्रसाद बंजारे	सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला नारायणपुर

बस्तर

1	श्री पंकज सिंह	सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
2	श्री चितरंजन दास	प्रभारी नायब तहसीलदार बस्तर, राजस्व विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
3	श्री अल्फ्रेड मिंज	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
4	श्री शिवनाथ लोई	राजस्व निरीक्षक बकावंड, भू अभिलेख विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
5	श्री प्यारेलाल पैकरा	राजस्व निरीक्षक नजूल नवकरण जगदलपुर, भू अभिलेख विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर
6	श्री जीनबंधु बघेल	राजस्व निरीक्षक करपावंड, भू अभिलेख विभाग	सम्पूर्ण जिला बस्तर

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री शैलेन्द्र सिंह भदौरिया	शिक्षक सुकमा खण्ड विकास सुकमा	सम्पूर्ण जिला सुकमा
2	श्री यशवंत साहू,	उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र तोंगपाल वनमंडल सुकमा	सम्पूर्ण जिला सुकमा
3	श्री संतोष कुमार दास,	उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र कोंटा वनमंडल सुकमा	सम्पूर्ण जिला सुकमा
4	श्री देवानंद कश्यप,	नक्षेत्रपाल परिक्षेत्र जगरगुण्डा वनमंडल सुकमा	सम्पूर्ण जिला सुकमा
5	श्री कुम्भकरण सिंह धुव	उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र तोंगपाल वनमंडल सुकमा	सम्पूर्ण जिला सुकमा

विधानसभा निर्वाचन 2018, सेक्टर/जोनल हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी के नाम

क.	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	क्षेत्र के नाम जहां पर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
कोरिया			
1	श्री एडवर्ड खलखो	वन क्षेत्रपाल वन मंडल मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
2	श्री जी.एल.टांडीया	वन क्षेत्रपाल वन मंडल मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
3	श्री रमाकांत चंद्राकर	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सम्पूर्ण जिला कोरिया
4	श्री सुदर्शन पैकरा	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
5	मो. हसन	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
6	श्री एस.एन.द्विवेदी	उप वन क्षेत्रपाल, वन मंडल मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
7	डॉ. राज बहोर शर्मा	पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सालय केलहारी उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाए	सम्पूर्ण जिला कोरिया
8	श्री जी.पी.पाण्डेय	उप अभियंता, जल संसाधन उपसंभाग जनकपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
9	श्री आर.एस.कुर्	वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र जनकपुर वन मंडल मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
10	श्री एन.एल.साकेत	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.कुवारपुर विकासखंड जनकपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
11	श्री कमलेश देवांगन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
12	श्री प्रियलेश प्रसाद	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड जनकपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
13	डॉ. महेन्द्र बहादुर सिंह बघेल	पशु चिकित्सा अधिकारी	सम्पूर्ण जिला कोरिया
14	श्री अमित चन्द्राकर	जिला विपणन अधिकारी जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
15	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला	पशु चिकित्सक, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाए	सम्पूर्ण जिला कोरिया
16	श्री राजेन्द्र कुमार साहू	कार्यपालन अभियंता, गृह निर्माण मंडल	सम्पूर्ण जिला कोरिया
17	श्रीआर.के.एस.भदौरिया	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग जनकपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
18	श्री कमलेश दुवे	वन क्षेत्रपाल, पार्क परिक्षेत्र जनकपुर कार्या.सहा.संचा.गुरुघासीदास रा. उधान	सम्पूर्ण जिला कोरिया
19	श्री काशी प्रसाद पेकरा	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता गृह निर्माण मंडल	सम्पूर्ण जिला कोरिया
20	श्री घासीराम	वन क्षेत्रपाल, पार्क परिक्षेत्र रामगढ़ कार्या.सहा.संचा.गुरुघासीदास रा. उधान	सम्पूर्ण जिला कोरिया
21	श्री बुद्धसेन नापित	उप वन क्षेत्रपाल, पार्क परिक्षेत्र सोनहत कार्या.सहा.संचा.गुरुघासीदास रा. उधान	सम्पूर्ण जिला कोरिया
22	श्री जागेश्वर राम भगत	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सोनहत	सम्पूर्ण जिला कोरिया
23	श्री प्रभु नाम राम	वन क्षेत्रपाल, वन मंडल बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
24	श्री मुज्जमिल अहमद	नाम तौल निरीक्षक कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया

25	श्री बजरंग पैकरा	सहायक खनिज अधिकारी	सम्पूर्ण जिला कोरिया
26	श्री बी.एस.मण्डावी	सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
27	श्री एच.एस.धुव	उपसंचालक, उधान जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
28	श्री अशोक कुमार सिन्हा	जिला कार्यक्रम समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सम्पूर्ण जिला कोरिया
29	श्री रामदेव सिंह	उप वन क्षेत्रपाल, पार्क परिक्षेत्र रेहनद कार्या.सहा.संचा.गुरुघासीदास रा. उधान	सम्पूर्ण जिला कोरिया
30	श्री के.एस.कवर	सहायक संचालक, नगरीय निवेश जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
31	श्री एस.के.चौकसे	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सोनहत	सम्पूर्ण जिला कोरिया
32	श्री रघुनाथ राम	मंडल संयोजक, आदिवासी विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
33	श्री वही.पी.पटेल	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग जनकपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
34	श्री शंकर प्रसाद चोरसिया	सहायक संचालक मत्स्य जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
35	श्री बी.के.चतुर्वेदी	अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
36	श्री संतोष तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
37	श्री गौरीश कुमार कुरचानिया	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.बेलबहरा मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
38	डॉ. आर.एस.बघेल	उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाए जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
39	श्री जे.पी.राय	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
40	श्री आशीष कुमार नाग	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
41	श्री एस.के.भार्वे	जिला रोजगार अधिकारी, जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
42	श्री इस्माईल खान	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
43	श्री द्वारिकानाथ नायक	सहायक पंजीयक, सहकारिता कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
44	श्री जनक देव शुक्ला	सहायक भू संरक्षण अधिकारी मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
45	श्री ब्रजलाल साहू	सहायक प्राध्यापक विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
46	डा. विनीत भारद्वाज	पशु चिकित्सा अधिकारी, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाए	सम्पूर्ण जिला कोरिया
47	श्री तपन कुमार चक्रवर्ती	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
48	श्री दिलीप सोनी	उप अभियंता, सेतु मनेन्द्रगढ़	सम्पूर्ण जिला कोरिया
49	डॉ.ए.के.सिंह	सहायक प्राध्यापक, शासकीय कृषि महाविद्यालय	सम्पूर्ण जिला कोरिया
50	श्री वेद प्रकाश मिश्रा	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. कन्या चिरमिरी	सम्पूर्ण जिला कोरिया
51	डॉ रामकिंकर पांडे	सहायक प्राध्यापक, लहडी महाविद्यालय चिरमिरी	सम्पूर्ण जिला कोरिया
52	श्री डी.के.शर्मा	कार्यपालन अभियंता, नगर निगम चिरमिरी	सम्पूर्ण जिला कोरिया
53	श्री आर.पी.सोनकर	उप अभियंता, नगर पालिक निगम चिरमिरी	सम्पूर्ण जिला कोरिया
54	डॉ दीपक सिंह	सहायक प्राध्यापक, नवीन महाविद्यालय खड्गवां	सम्पूर्ण जिला कोरिया
55	श्री अमित बाबरिया	सहायक प्राध्यापक, नवीन महाविद्यालय खड्गवां	सम्पूर्ण जिला कोरिया
56	श्री शुभकरण द्विवेदी	सहायक मत्स्य अधिकारी बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
57	श्री एस.एस.सिंह	सहायक संचालक, कृषि जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
58	श्री शत्रुघ्न सोनवानी	सहायक प्राध्यापक, नवीन महाविद्यालय खड्गवां	सम्पूर्ण जिला कोरिया
59	श्री आर.एस.कुशवाहा	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
60	श्री अखिलेश गुप्ता	प्राचार्य, शा.रा.प्र.सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
61	श्री विनोद कुमार राम	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
62	श्री देवेश जायसवाल	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
63	श्री डी.के.नामदेव	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
64	श्री एम.सी.हिमधर	सहायक प्राध्यापक, शा.रा.प्र.सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
65	श्री आर.एस.जायसवाल	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
66	श्री जे.आर.कवर	सहायक प्राध्यापक, शा.रा.प्र.सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया

67	श्री उदय बोबडे	उप अभियंता, ग्रामीण सड़क विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
68	श्री बसंत दुवे	विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
69	श्री भुपेन्द्र कोरचे	उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरिया
70	श्री पी.के.भगत	सहायक प्राध्यापक, शा.कृषि महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
71	श्री अखिलेश मिश्रा	वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
72	श्री डी.पी.तिवारी	जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
73	श्री आर.सी.जैन	उप अभियंता, गेज स्पिलवे उपसंभाग बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
74	श्री रंजीत सिंह राजपूत	वरिष्ठ बैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
75	श्री राजेन्द्र सिंह	जिला खेल अधिकारी जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
76	श्री मोहर साय सोनवानी	सहायक मत्स्य अधिकारी बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
77	डॉ. गौरव कुमार मिश्रा	सहायक प्राध्यापक, शा.रा.प्र.सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	सम्पूर्ण जिला कोरिया
78	श्री रामायण उपाध्याय	जिला क्रेडा अधिकारी	सम्पूर्ण जिला कोरिया
79	डॉ. राकेश कुमार शुक्ला	पशु चिकित्सा अधिकारी बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
80	श्री ए.टोप्पो	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन खड़गवा	सम्पूर्ण जिला कोरिया
81	श्री एलेक्स जेण्डर पन्ना	सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया	सम्पूर्ण जिला कोरिया
सूरजपुर			
1	अशोक कुमार सिंह	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालक कृषि	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
2	श्री आर.आर.विश्वकर्मा	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. डुमरया	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
3	श्री अभिषेक झा	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालक कृषि	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
4	श्री एम.डी.ओ. चक्रवर्ती	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. बसदेई	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
5	श्री बजेश श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी शा.यां. सेवा सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
6	एस.पी.दुबे,	प्राचार्य शा.उ. मा.वि. केतका	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
7	श्री लेफ सिंह	प्राचार्य शासकीय बालक उ.म.विद्यालय सूरजपुर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
8	श्री एन.के. रक्सेल	व.कृ.वि.वि.अधिकारी कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
9	फिलमोन केरकेहा	प्राचार्य शासकीय उ.म.विद्यालय डेडरी कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
10	एम.डी.दडोरे	व.कृ.वि.अधिकारी, उप संचालक कृषि कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
11	डी.एस.भदोरिया	व.कृ.वि.अधिकारी, उप संचालक कृषि कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
12	दिनिक कुमार निगम	प्राचार्य, शा.उ.मा.कृष्णपुर, कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
13	श्री दीपक सांवरगांवकर	व.कृ.वि.अधिकारी, उप संचालक कृषि कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
14	आर.के.झरिया	व.कृ.वि.अधिकारी, उप संचालक कृषि कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
15	श्री डी.एस. लकड़ा	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. आमगांव कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
16	श्री आर.एन. यादव	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. भुनेश्वरपुर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
17	राजकुमार बड़ा	सहा. सांख्यिकी अधि., परियोजना कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
18	श्री एन.पी. सिंह	कृषि विकास अधिकारी रामामानुजनगर कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
19	पी.एस.परस्ते	मत्स्य निरीक्षक, जिला मत्स्य कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
20	चन्दन सिंह ठाकुर	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
21	पी.पी. सिदार	मत्स्य निरीक्षक, जिला मत्स्य कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
22	श्री महेश्वर सिंह	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. उमेश्वरपुर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
23	सुखलाल राम भगत	व.कृ.वि.अधिकारी, उप संचालक कृषि सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
24	श्री के.आर. सिंह	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. मदनपुर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
25	आर.एल.भारिया	व.कृ.वि.अधिकारी, उप संचालक कृषि कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
26	अलख राम आंडिल्य	व.कृ.वि.अधिकारी, उप संचालक कृषि कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर

27	श्री कृपा शंकर कुशवाहा	व.कृ.वि.अधिकारी, उप संचालक कृषि कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
28	श्री रामजी लहरे	प्र.प्राचार्य शा.उ.मा.वि. प्रेमनगर, कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
29	श्री के.के. सिंह	कृषि विकास अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
30	योगेश मानवटकर	मत्स्य निरीक्षक कार्या. मछली पालन विभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
31	श्री आलोक कुमार सिंह	सहा.विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
32	श्री रामस्वरूप पीपर	सहा.मत्स्य अधिकारी कार्या. सहा.संचालक पछली पालन सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
33	प्रेम सिंह	प्राचार्य, शा.हाई स्कूल छतरंग, कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
34	शहबद अली खान	वन क्षेत्रपाल कार्या.वन मण्डलाधिकारी उ.स.व. मण्डल सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
35	अनिल कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल कार्या.वन मण्डलाधिकारी उ.स.व. मण्डल सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
36	श्री अशोक कुमार सिंह	कृ.वि.अधिकारी, उप संचालक कृषि कार्या. सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
37	श्री सूर्यमणी द्विवेदी	सहा. मत्स्य अधि. कार्या. सहा. मछली पालन विभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
38	श्री निरूपति राम भारती	व्या. शा.उ.मा.वि. ओड़गी कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
39	अरुण कुमार खरे	अनुविभागीय अधिकारी, जनसंसाधन संभाग सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
40	श्री फूल सिंह मरावी	सहा. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
41	श्री ओ.पी. द्विवेदी	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. चेन्द्रा कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
42	आर.एन. तिवारी	कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
43	श्री शिवकिशोर मिश्रा	कृ.वि.अधिकारी कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
44	श्री प्रदीप भूषण कुजूर	प्राचार्य हाई. स्कूल पौडी वि.ख. सूरजपुर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
45	रामशरण राम	वन क्षेत्रपाल कार्या.वन मण्डलाधिकारी उ.स.व. मण्डल सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
46	श्री पति राम तोमर	व्या. शा.उ.मा.वि. शिवप्रसादनगर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
47	श्री अजय कुमार द्विवेदी	प्राचार्य. शा. उ.मा.वि. शिवप्रसादनगर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
48	श्री दिनेश कुमार वैद्य	व्या. उ.मा.वि. बैजनाथपुर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
49	श्री रामप्रधान मण्डल	संयोजक भैयाथान कार्या. जनपद पंचायत भैयाथान	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
50	श्री महेश मरकाम	परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग भैयाथान	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
51	मेवालाल पटेल	उप वन क्षेत्रपाल कार्या. वनमण्डलाधिकारी उ.स.व. मण्डल सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
52	श्री डी.एस. सिंह	कृ.वि.अधिकारी, कार्या. उप संचालक, कृषि सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
53	श्री खिल्ली सिंह कुशवाहा	कृ.वि.अधिकारी कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
54	श्री रामाधार नेताम	कृ.वि.अधिकारी कार्या. उप संचालक, कृषि सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
55	ब्रजेश कुमार चैबे	प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिवप्रसादनगर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
56	श्री के.पी. कुजूर	प्राचार्य, शा.हाई.स्कूल पसला. वि.ख. सूरजपुर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
57	श्री सूर्यनाथ राम	उप वन क्षेत्रपाल कार्या. वनमण्डलाधिकारी उ.स.व. मण्डल सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
58	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	उप वन क्षेत्रपाल कार्या. वनमण्डलाधिकारी उ.स.व. मण्डल सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
59	निर्मल राम	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. सिरसी, कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
60	चरणकेश्वर सिंह	उप वन क्षेत्रपाल कार्या. वनमण्डलाधिकारी उ.स.व. मण्डल सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
61	दयानन्द सोनवानी	उप वन क्षेत्रपाल कार्या. वनमण्डलाधिकारी उ.स.व. मण्डल सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
62	दुलारसाय	उप वन क्षेत्रपाल कार्या. वनमण्डलाधिकारी उ.स.व. मण्डल सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
63	श्री कामेश्वर प्रसाद	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. करवां कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
64	श्री एन.एस. राजपूत	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. कल्याणपुर वि.ख. सूरजपुर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
65	श्री विजय सिंह	प्रबंधक, महामाया शंकर कारखाना केरता प्रतापपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
66	श्री भरत लाल कंवर	सहा. प्राध्यापक कार्यालय शासकीय महाविद्यालय सिलफिली	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
67	श्री अजय कुमार तिवारी	सहा. प्राध्यापक कार्यालय शासकीय महाविद्यालय सिलफिली	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर

68	गोपाल दास टण्डन	खनिज निरीक्षक कार्या. कलेक्टर खनिज शाखा	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
69	श्री शंभू प्रसाद निषाद	प्राचार्य, हाई. स्कूल नवापारा सूरजपुर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
70	श्री नितरंजन सिंह पैकरा	सहा.सां.अधिकारी कार्या. जिला योजना एवं सांख्यिकी सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला सूरजपुर
बलरामपुर			
1	टी एक्का	कार्यपालन अभियंता अभि.प्रध.शा.स.यो.ई.	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
2	उमाकांत रामटेकर	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
3	उमाशंकर राम	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
4	जी.आर.राठौर	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
5	एलिसियस टोप्पो	सहायक यांत्रिकी कार्यपालन अभियंता लो.स्वा.यां. विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
6	रोविसन सुधीर कुजूर	अनुविभागीय कृषि अधिकारी, कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
7	रोशन कुमार ओगरे	सहायक संचालक कृषि, कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
8	डॉ.के.आर.साहू	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
9	डॉ.सीताराम दुबोलिया	वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
10	अनिल कुमार सोनपाकर	वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
11	मनीष कुमार आर्या	वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
12	पाण्डू राम पैकरा	वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
13	अजय कुमार	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
14	रमेश कुमार राय	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
15	पंचराम बंजारे	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
16	राजकुमार पैकरा	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
17	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
18	रवेन्द्र सिंह नेताम	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
19	सुरेन्द्र कुमार राठिया	जल सनसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
20	नन्द राम भगत	विद्युत विभाग राजपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
21	अरुण कुमार तिवारी	जल सनसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
22	तोरण लाल ठाकुर	उप संभागीय कार्य अभि लो नि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
23	अभिषेक पांडेय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ उप संचालक पशु विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
24	पुनीत तिर्की	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ उप संचालक पशु विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
25	रामलखन राम	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ उप संचालक पशु विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
26	विष्णु दयाल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ उप संचालक पशु विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
27	डॉ डी एन सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ उप संचालक पशु विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
28	ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी	उप अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
29	विजय कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
30	सुधांशु कुमार वर्मा	उप अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
31	सतेन्द्र विशकर्मा	सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
32	दिनेश भगत	उप अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
33	रामनारायण पटेल	उप अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
34	ब्रिजेश कुमार दिवेंदी	उप अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
35	आजाद मोहम्मद खान	उप अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
36	रामजी पटेरिया	सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
37	प्रेम कुमार लाकडा	सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
38	विद्याधर त्रिपाठी	उप अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
39	अनिल कुमार मिश्रा	सहायक अभियंता शा.या.सेवा उप संभाग राजपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
40	नागेन्द्र कुमार वासनिक	सहायक अभियंता कार्या.शा.प्रध.शा.स.यो.ई.	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
41	दिलीप कुमार मिश्र	सहायक अभियंता कार्या.शा.प्रध.शा.स.यो.ई.	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर

42	रमेश खलखो	उप अभियन्ता, लो. स्वा.या. बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
43	छकोदीलाल कोरी	उप अभियन्त कर्मा.अभि.लो. स्वा.या. बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
44	सियाराम गुप्ता	उप अभियन्त कर्मा.अभि.लो. स्वा.या. बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
45	चन्दन सिंह राठिया	वारिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय उप संचलक कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
46	रामबहाली राम	वारिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय उप संचलक कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
47	रामचंद्र भगत	वारिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय उप संचलक कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
48	सुखनाथ मरावी	कृषि विकास अधिकारी कार्यालय उप संचलक कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
49	गोकराण खांडेकर	वारिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय उप संचलक कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
50	सोहन माझी	कृषि विकास अधिकारी कार्यालय उप संचलक कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
51	भुनेश्वर प्रसाद	मत्स्य निरीक्षक सहायक संचालक नाछली पालन	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
52	तिलोचन कुमार मिरचे	मत्स्य निरीक्षक सहायक संचालक मछली पालन	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
53	प्रेमसागर राम	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी सहायक संचालक उद्यानिकी	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
54	लीलाधर पैकर	वारिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी सहायक संचालक उद्यानिकी	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
55	हुबलाल अहिन्द	उप अभियन्ता कार्या.लो.नि.विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
56	बेन्जामिन तिकी	उप अभियन्ता कार्या.लो.नि.विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
57	ज्योतिश कुमार तिग्गा	उप अभियन्ता कार्या.लो.नि.विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
58	नारायण प्रसाद डहरिया	उप अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
59	महेंद्र कुमार सान्डील्य	उप अभियन्ता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
60	संजय कुमार गायकर	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
61	आशीष जगत	उप अभियन्ता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
62	विश्वास विश्वकर्मा	वरिष्ठ क्रीडा अधिकारी शा.महाविद्यालय रामानुजगंज	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
63	पियूष टांडे	वरिष्ठ क्रीडा अधिकारी शा.महाविद्यालय रामचंद्रपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
64	श्यामबाबू सिंह	सहायक प्राध्यापक, शा.महाविद्यालय रामानुजगंज	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
65	सी.एन. राम	जिला परियोजना अधिकारी जिला लोक शिक्षा समिति बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
66	प्रमोद बहादुर सिंह	क्रीडा अधिकारी शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
67	सुखलाल बघेल	सहायक अभियन्ता बिजली विभाग बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
68	सुमन किशोर किण्डो	सहायक अभियन्ता क्रेडा विभाग बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
69	शेषमनी तिवारी	उप अभियन्ता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
70	नितेश विश्वकर्मा	सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय श्रमाधिकारी	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
71	कृष्णा मुरारी चौधरी	सहायक अभियन्ता क्रेडा विभाग बलरामपुर PMGSY DEPT.	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
72	लावन्य पुष्प परगनिहा	उप संभागीय अधिकारी PWD DEPT.	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
73	विनोद गुप्ता	सहायक परियोजना अधिकारी आर. एम. एस.ए. बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
74	राम कुमार धुव	उप संभागीय अधिकारी पी.डब्ल्यू.डी.	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
75	मनीष पवार	सहायक संचालक रेशम कार्यालय सहायक संचालक रेशम	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
76	पिटर सुमन तिग्गा	जिला रोजगार अधिकारी जिला रोजगार कार्यालय बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
77	विजय बहादुर सिंह आयाम	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज उप उप संचालक पशु विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
78	सिल्वेस्टर मिंज	सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
79	विजय जमनिक	सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
80	भवानी प्रसाद चढ़ाड	सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
81	बी.के. राजपूत	सहायक आयुक्त ए.सी.ऑफिस बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
82	प्रमोद कुमार जागड़े	जिला प्रबंधक छ.ग.राज्य सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
83	आर.के.घोसले	सहायक अभियन्ता कार्या.अभि.प्रध.या.स.यो.ई.	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
84	विकास कुमार त्रिपाठी	उप अभियन्ता कार्या.अभि.या. यांत्रिकी सेवा	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
85	योगेन्द्र सिंह	खनिज अधिकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
86	पुकुलराम खंडेवाल	प्रबंधक जिला उद्योग विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
87	श्रवण सिंह	उप अभियन्ता, कार्या.अभि.लो.स्वा.यां.बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर

88	राजेश पांडे	उप अभियंता, कार्या.अभि.लो.स्वा.यां.बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
89	परिमल तिवारी	उप अभियंता, कार्या.अभि.लो.स्वा.यां.बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
90	भीमराम आर्याम	उप अभियंता, कार्या.अभि.लो.स्वा.यां.बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
91	नरसिंह भगत	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्या. उप संचालक कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
92	विनोद कुमार तिवारी	सहायक कृषि विकास अधिकारी कार्या. उप संचालक कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
93	श्यामलाल कंवर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्या. उप संचालक कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
94	ज्ञानदास बंजारे	कृषि विकास अधिकारी कार्या. उप संचालक कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
95	सायम मोहम्मद खान	सहायक खंड अधिकारी कार्या.लो.नि.विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
96	रवि शंकर	मत्स्य निरीक्षक सहायक संचालक मछली पालन	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
97	टिकेश्वर राम दिवाकर	उद्यान विकास अधिकारी सहा.संचालक उद्यानिकी	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
98	दिलीप कुमार सिंह	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी सहा.संचालक उद्यानिकी	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
99	एस.एस सिंह	उप अंकेक्षक उप संचालक पंचयत	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
100	अनिल तिवारी	विकास खण्ड अधिकारी शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
101	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	उप अभियन्त कार्या लो.नि.विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
102	पुरन्दर कुमार पैकरा	उप अभियन्त कार्या लो.नि.विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
103	सिदार्थ प्रसाद शुक्ला	सहायक मत्स्य अधिकारी सहायक संचालक मछली पालन	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
104	जितेन्द्र कुमार गुप्ता	उप अभियन्त कार्या लो.नि.विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
105	मनोज कुमार सिंह	उप अभियन्त कार्या लो.नि.विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
106	राम कुमार बन्धे	उप अभियन्त कार्या लो.नि.विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
107	हनीफ अहमद अंसारी	उप अभियन्त जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर

रिजर्व सेक्टर अधिकारी की सूची

1	अगस्टिन कुजूर	सहायक प्राध्यापक, शा.महाविद्यालय रामानुजगंज	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
2	रमेश खैरवार	सहायक प्राध्यापक, शा.महाविद्यालय रामानुजगंज	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
3	शनि धारी	सहायक प्राध्यापक, शा.महाविद्यालय रामानुजगंज	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
4	आसफ तिकी	उप अभियन्ता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
5	प्रमोद खम्परिया	वरिष्ठ सहायक, छ.ग.राज्य सिविल स्प्लाइ कांफिशन	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
6	मुकेश पांडे	सहायक प्राध्यापक, शा.महाविद्यालय रामानुजगंज	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
7	ओम प्रकाश गुप्ता	सहायक परियोजना अधिकारी, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
8	विजय कुमार चौबे	विकास खंड अधिकारी, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
9	जयगोविन्द तिवारी	विकास खंड अधिकारी, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
10	गिरीश नारायण तिवारी	विकास खंड अधिकारी, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
11	आर.एल.पटेल	विकास खंड अधिकारी, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
12	अनिल कुमार धुव	विकास खंड अधिकारी, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
13	पतराम सिंह	सहायक संचालक, उद्यानिकी	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
14	भूपेंद्र सिंह	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यालय नगर पंचायत	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
15	सत्यनारायण साहू	सहायक प्राध्यापक, शा.महाविद्यालय बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
16	रमेश पटेल	सहायक प्राध्यापक, शा.महाविद्यालय बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
17	नन्द किशोर सिंह	सहायक प्राध्यापक, शा.महाविद्यालय बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
18	उमेश कुमार पांडे	सहायक प्राध्यापक, शा.महाविद्यालय बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर
19	आर.एस.अग्रवाल	शा.महाविद्यालय रामानुजगंज	सम्पूर्ण जिला बलरामपुर

सरगुजा

1	श्री जे.आर.सान्डे	सहायक अभियंता, क्रेडा, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
2	श्री संजय कुमार मिंज	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
3	श्री वन्देराम बैरागी	सहा.अभि., जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
4	श्री इन्द्रबलि सिंह मार्कण्डेय	सहा.जिला.आब.अधि., जिला आबकारी अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा

5	श्री लक्ष्मी नाथ पैकरा	सहायक अभियंता, धर्मल पावर परियोजना अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
6	श्री एस0पी0 त्रिपाठी,	उप संचालक, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
7	श्री हेमचन्द्र मकवाना	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
8	श्री एम.डी.लहरे	उप वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वन मंडल, अं.पुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
9	श्री देवेन्द्र सिन्हा	खेल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सरगुजा	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
10	मो0 शाहिद कुरैशी	सहा.अभि., धर्मल पावर परियोजना अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
11	श्री रजत शीलानन्द तिर्की	सहा.अभि., धर्मल पावर परियोजना अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
12	श्री अवध राम गोंड	सहा.अभि., धर्मल पावर परियोजना अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
13	श्री योगेश मिश्रा	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लुण्डा	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
14	श्री अशोक कुमार गोयल	सहा.अभि., धर्मल पावर परियोजना अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
15	श्री एस.एस.पैकरा	सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां. विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
16	श्री जगेन्द्र सिंह चन्देल	सहा.अभि., जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
17	श्री सुशील कुमार टोप्पो	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
18	श्री सुखदयाल मिश्रा	सहा.अभि., जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
19	श्री प्रदीप कुमार वासनिक	सहा.अभि., जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
20	श्री अनिल कुमार खलखो	कार्य.अभि., धर्मल पावर परियोजना अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
21	श्री श्यामबिहारी लाल	सहा.पंजी., सहकारी संस्थान अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
22	श्री प्रदीप खलखो	कार्य.अभि., लो.स्वा.यां.अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
23	श्री सुमत साय पैकरा	सहा.अभि., लो.स्वा.यां.अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
24	श्री महेश साहू	सहा.अभि., लो.स्वा.यां.अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
25	श्री देवराम प्रसाद नागेश	सहायक संचालक, सहायक संचालक अ.जा.क अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
26	श्री आर.के.राम	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
27	श्री अशोक सिंह,	उप अभियंता, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
28	श्री संतोष रवि,	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
29	श्री कैलाश खरील,	उप अभियंता, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
30	श्री विजय नारायण श्रीवास्तव,	क्षेत्र संयोजक, आदिवासी विकास अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
31	श्री रवि शंकर तिवारी,	सहायक परियोजना संमन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
32	श्री एस.डी. पाडेय	विकास शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
33	श्री दिनेश चन्द्र कौशले,	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
34	श्री अशोक सिंह परिहार,	प्रभारी प्रबंधक, ग्रामोद्योग विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
35	श्री राजीव पाठक,	सहायक अभियंता, स्कूल शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
36	श्री रामजीत आर्या,	अनुभाग अधिकारी, लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
37	श्री लोकेश देवागन,	सहायक जिला मार्कफेड अधिकारी, सहायक जिला मार्कफेड	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
38	श्री विनोद राय	ए.डी.पी.ओ., स्कूल शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
39	श्री सुजित श्रीवास्तव,	सहायक अभियंता क्रेडा अम्बिकापुर, क्रेडा विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
40	श्री भरत अग्रवाल,	सहायक परियोजना अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
41	श्री देव कुमार गुप्ता	(विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर) स्कूल शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
42	श्री डी0एन.मिश्रा,	(विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर) स्कूल शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
43	श्री एम.एल. कुनजाम,	(सहायक नियंत्रक) नाप तौल विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा

44	श्री मनोज सिंह,	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उदयपुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
45	श्री के.सी. गुप्ता,	जिला मिशन समन्वयक, स्कूल शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
46	श्री संजय कुमार गुप्ता,	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा कार्यालय अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
47	श्री आशिष दुबे,	सहायक संचालक, जिला शिक्षा कार्यालय अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
48	श्री एस.बी. सिंह चंदेल,	उप वन मण्डलाधिकारी उदयपुर वन विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
49	डॉ सुरेश प्रसाद सिंह,	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अम्बिकापुर पशुधन विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
50	श्री बी.एल. कोकट्टी,	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
51	श्री मितेश तिवारी,	सहायक अभियंता, नेशनल हाईवे अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
52	श्री एन.एल. सोनकर,	उप संचालक खनिज अम्बिकापुर, खनिज विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
53	श्री अनिल कुमार कुजूर,	श्रम अधिकारी अम्बिकापुर, वन विभाग	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
54	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी,	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग विद्युत/यांत्रिकी, अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
55	श्री आशुतोष कुमार कौशिक,	जिला पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
56	श्री एन.सी. सिंह,	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
57	डॉ. तनवीर अहमद,	सहायक संचालक, छ.ग. कौशल विकास प्राधिकरण	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
58	श्री विनोद कुमार मिंज	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सहायक अभिकरण अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
59	श्री गोपाल सिंह सिदार	सहायक अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सहायक अभिकरण अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
60	श्री एस.एल. निगम	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
61	श्री सी.एल. सिंह	सहायक अभियंता, जल संसाधन अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
62	श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे	उप अभियंता, जल संसाधन अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
63	श्री एस.सी. मेघपाल	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपाट	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
64	श्री बी.एस. कंवर	सहायक अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सहायक विकास अभिकरण अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
65	श्री अशोक कुमार जैन	उप अभियंता, जल संसाधन अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
66	श्री सतीश कुमार अहिरवार उप संचालक	मत्स्य विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
67	श्री एन. के. मोदी	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांचिकी सेवा अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
68	श्री सुरेन्द्र कुमार महापात्र	कार्यपालन अभियंता, सेतु निर्माण संभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
69	श्री मनोज कुमार मरकाम	सहायक अभियंता, सेतु निर्माण संभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
70	श्री एम.के.एस. सेंगर	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर, आदिम जाति कल्याण	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
71	श्री विपिन राज मिंज	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीतापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
72	श्री संतोष भगत	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
73	श्री पी.एस. दीवान	अनुविभागीय अधिकारी कृषि	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
74	श्री ध्रुव कुमार मौर्य	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
75	श्री चूड़ामणी सिंह	उप वनमण्डलाधिकारी, वन विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
76	श्री नवल किशोर पटेल सहायक अभियंता	लोक निर्माण विभाग अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
77	श्री ए.के. मिंज	सहायक अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
78	श्री सुनील कुमार शर्मा	सहायक अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सहायक विकास अभिकरण अम्बिकापुर	सम्पूर्ण जिला सरगुजा
जशपुर			
1	श्री विनय तिवारी	परिवीक्षा अधिकारी, पंचायत विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
2	श्री एस.के. वाहने,	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
3	श्री गोपाल नायक,	अनुविभागीय अधिकारी, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
4	श्री व्ही.के.राम,	कार्यपालन अभियंता, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर

5	श्री के. आर. दरश्यामकर,	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
6	श्री एम. के. देशपाण्डेय,	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
7	श्री मनीराम यादव,	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
8	श्री व्ही. पी. विष्वास,	सहायक संचालक, रेशम विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
9	श्री उमाशंकर भट्ट,	जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
10	श्री कमला सिंह यादव,	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
11	श्री कुवर साय पेंकरा	प्रभारी उपसंचालक कृषि जशपुर	सम्पूर्ण जिला जशपुर
12	श्री सी. आर. टेकाम,	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
13	श्री डी. आर. दर्दो,	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
14	श्री चन्द्रप्रकाश सिंह,	जिला विपणन अधिकारी विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
15	श्री रामअवध सिंह भदौरिया,	सहायक संचालक, उद्यान विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
16	श्री एन. एस. सिदार,	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
17	श्री विनोद कुमार सिंह,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
18	श्री संदीप बंजारे,	सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा क्रेडा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
19	श्री एच. एन. साय,	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
20	श्री ए. एस. राज,	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
21	श्री अनिल कुमार तिवारी,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
22	डा. ए. के. दविवेदी,	सहा. प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
23	श्री कवच भगत,	सहायक संचालक, कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
24	श्री बी. डी. लहरे,	उपअभियंता, छ. ग. गृह निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
25	श्री टी. पी. भूसाखरे,	जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
26	श्री लोकनाथ राम	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी जशपुर कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
27	श्री डी. के. इजारदार,	सहायक संचालक, मछली विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
28	डा. पी. के. सिंह,	सहायक प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
29	श्री टी. एन. सिंह	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
30	श्री सुनील शुक्ला,	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
31	श्री जी. एस. तंवर,	उप संचालक, पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
32	श्री विभूति कुमार क्षेत्रज्ञ,	जिला पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
33	श्री पी. आर. यादव,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्याव्यवसायी विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
34	श्री जी. एस. शर्मा,	सहायक पंजीयक, सहकारी विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
35	श्री आर. बी. तिवारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
36	श्री फूलसाय देवांगन	उप संचालक, समाज कल्याण विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
37	श्री विनायक साय	सहा. प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
38	श्री एम. जेड. यू. सिद्धीकी,	उप प्राचार्य, डाईट शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
39	श्री एम. एल. पटेल,	सहायक अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
40	श्री आर. आर. चौहान,	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
41	श्री प्रमोद भटनागर,	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
42	श्री प्रेम सिंह मरकाम,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
43	श्री एन. के. महतो,	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
44	श्री कमल कंवर,	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
45	श्री व्ही. के. गुप्ता,	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
46	श्री के. पी. पटेल,	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
47	श्री डी. एस. सिदार,	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर

48	श्री बी.एल.सरल,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
49	श्री एम.एस.पैकरा	प्राचार्य, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
50	श्री संजय दिवाकर,	अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
51	श्री एल.के. तिग्गा	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
52	श्री आर.के.शर्मा,	उद्यान अधीक्षक, उद्यानिकी विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
53	श्री डी.के.पाठक,	वरिष्ठ रेश्म निरीक्षक, रेश्म विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
54	श्री बी.एस. पैकरा,	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
55	श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय,	अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
56	श्री रितेश अग्रवाल,	सहायक प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
57	श्री एल.पी. डाहिरे	प्राचार्य, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
58	श्री एस.सी. गुप्ता,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
59	श्री एच. टोप्पो,	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
60	श्री टी.आर. पाटले,	सहा.प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
61	श्री एस.एस. पैकरा,	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सम्पूर्ण जिला जशपुर
62	श्री एम.एल. शर्मा,	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
63	श्री ए.के. चौधरी,	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा	सम्पूर्ण जिला जशपुर
64	श्री एम.के. धमीजा,	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
65	श्री एल.के. पैकरा,	सहायक प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
66	श्री व्ही.के. मिश्रा,	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
67	श्री आर.पी. कुटार	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सम्पूर्ण जिला जशपुर
68	श्री कृपा सिंधू पैकरा	वन विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
69	श्री के.के. सरल,	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
70	डा.गोवर्धन व्यास	सहायक प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
71	श्री भजन साय,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
72	श्री जयमंगल परिहार,	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पंचायत विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
73	श्री ए.के. तिकी	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन	सम्पूर्ण जिला जशपुर
74	श्री व्ही.पी.पटेल,	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	सम्पूर्ण जिला जशपुर
75	श्री बी. बखला,	प्राचार्य डाईट, शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
76	श्री ललित पटेल,	जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
77	श्री अमितेश किण्डो	उप अभियंता, सेतु निगम	सम्पूर्ण जिला जशपुर
78	श्री एम.आर. चारी,	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला जशपुर
रायगढ़			
1	श्री नाथ शुक्ला	उप वन क्षेत्रपाल, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
2	श्री सतीश कुमार पाण्डेय	उद्यान अधीक्षक, लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
3	श्री दिनेश कुमार तम्बोली	उपयंत्री, जनपद पंचायत लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
4	श्री हेमचंद्र पहारे	उप वन मंडलाधिकारी घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
5	श्री प्रकाशचंद्र उरावं	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
6	श्री पी.के. साहू	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
7	श्री के.एल. जाटव	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
8	श्री सी.पी.शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी, वन लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
9	डॉ. एल.के. विश्वाल	पशु चिकित्सक सहायक, सन्यज, लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
10	श्री विमल किशोर साहू	सचिव, कृषि उपज मंडी, समिति घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
11	श्री मुरलीधर पटेल	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
12	श्री रामसिंह सिदार	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लैलूंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

13	श्री बसंत कुमार	उप पंजीयक, सह संस्थाए रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
14	श्री सुरेन्द्र कुमार गौड़	सहायक पंजीयक, सह संस्थाए रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
15	श्री डी. एस. सिदार	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
16	श्री तरुण कुमार साहू	सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, नैलंगा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
17	श्री डी.के. देवांगन	सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
18	श्री संजय भगत	वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
19	श्री बी. पी. सिदार	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
20	श्री जे. एल. कुशवाहा	पशु चिकित्सा अधिकारी, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
21	श्री सुभाष प्रधान	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
22	श्री एल.एल. चौहान	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
23	श्री बी.आर. खेस्स	वन परिक्षेत्राधिकारी, तमनार	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
24	श्री मुननंद जोशी	खानि अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
25	श्री मनोहर लाल परमार	उप संचालक जिला हाथकरघा, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
26	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव	उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
27	श्री शंभू कुमार गुप्ता	जिला विपणन अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
28	श्री रामलाल यादव	कृषि विकास अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
29	डॉ. एच आर पाण्डेय	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाए रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
30	श्री रमेश देवांगन	जिला मिशन समन्वयक, रा.गा.शि.मि. रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
31	श्री चेतुराम व्यवहारे	उप संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय संपरीक्षा रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
32	श्री शशिकांत शर्मा	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
33	श्री संजय सिंह	कार्यपालन यंत्री, सिविल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
34	श्री रमेश कुमार साहू	प्रभारी उप संचालक समाज कल्याण, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
35	श्री विधान सिंह कुशवाहा	सहायक संचालक, उद्यान रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
36	श्री आर. एन. प्रसाद	प्र.सहा.संचा., नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
37	श्री उपेंद्र वासनिक	जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
38	श्री बी. बी. पाण्डेय	उपसंचालक, मतस्य विभाग, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
39	श्री अनंतराम प्रधान	सहा.संचा., खादी गामदयोग रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
40	श्री अमित राठौर	ड्रग इन्स्पेक्टर, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
41	श्री राजेश पांडा	उपयंत्री, नगर पालिक निगम रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
42	श्री दिलीप उरांव	उपयंत्री, नगर पालिक निगम रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
43	श्री प्रदीप जायसवाल	उपयंत्री, नगर पालिक निगम रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
44	श्री रामावतार तिवारी	अ.वि.अ., लोक निर्माण विभाग, ब्रिज रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
45	श्री आर.के. शर्मा	क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
46	श्री रमेश गुप्ता	प्र.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अन्त्यावसायी रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
47	श्री आर.एस. चन्द्रा	अनु.अधि.,केलो नि.परि. रायगढ़ उप संभाग पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
48	श्री आर.एन. साहू	प्र.वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
49	श्री अजय अग्रवाल	उप अभि.,केलो नि.परि. रायगढ़, उप संभाग पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
50	श्री उत्तम कुमार सिदार	सहा. वि.खं.शि.अधि., पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
51	श्री बी.एस. कलचुरी	उप अभि.,केलो नि.परि.रायगढ़, उप संभाग पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
52	श्री डी.के. देवांगन	सहा.वि.वि.अधि., पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
53	श्री एन.के. कुलमित्र	सहा.वि.वि.अधि., पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
54	श्री टी.आर. प्रधान	उप अभि., ग्रा.यां.से. पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
55	श्री ए.के. कामरे	अ.वि.अ., ग्रा.यां.से. बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
56	श्री आर.एस. नौरंगे	वि.ख.शि.अ., बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
57	डॉ. आशाराम भास्कर	कृषि विकास अधिकारी, बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

58	श्री गजेन्द्र कुमार सिंह	सहा.जि.आब.अधि., रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
59	श्री एस.आर. भगत	उप. संचा. कृषि, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
60	श्री सरोधन सिंह कंवर	उप संचालक रेशम, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
61	श्री विजय कुमार दुबे	कृषि विकास विस्तार, अधिकारी	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
62	श्री शैलेश पिस्टा	सहा.अभि., छ.ग. पर्या. सं.मंडल रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
63	श्री शुभकरण सिंह	पशु चिकि. सहा. सल्यज, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
64	श्री विरेन्द्र भार्गव	कार्य.अभि., परि.क्रि. इकाई क्र. 2 रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
65	श्री बी.एल. खरे	प्र.सहायक अभि., लो.स्वा.यां. सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
66	श्री एस.एन. भगत	वि.ख.शि.अ., सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
67	श्री सी.के. राठौर	अ.वि.अ., या.यां.से. सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
68	श्री यू.एस. मौर्य	उद्यान प्रभारी, सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
69	श्री दिलीप कुमार कुरे	उप संचालक, पंचा.एवं समाज कल्याण रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
70	श्री एस.एल. द्विवेदी	अ.वि.अ., जल संसाधन सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
71	श्री लाल बहादुर साह	कार्य.अभि., जल संसाधन विभाग रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
72	श्री एस.के. राठौर	अ.वि.अ., (कृषि) सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
73	श्री मुकेश कुरे	सहा.वि.शि.अधि., सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
74	श्री रवि डोंगरे	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
75	श्री विनोद कुमार अग्रवाल	पशु चिकित्सा सहा.सल्यज, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
76	श्री दिनेश कुमार पटेल	पशु चिकित्सा सहा.सल्यज, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
77	श्री मदन कुमार पाठक	सहा.अभि., केलो परि.सर्वे संभाग रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
78	श्री अनिल कुमार पटेल	पशु चिकित्सा सहा.सल्यज, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
79	श्री योगेश्वर चन्द्रा	पशु चिकित्सा सहा.सल्यज, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
80	श्री रमेश कुमार मनहर	पशु चिकित्सा सहा.सल्यज, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
81	श्री आर.जे. साहू	अधीक्षक, शा. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
82	श्री विजय सिंह	पशु चिकित्सा सहा.सल्यज, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
83	डॉ. एस.के. जोल्हे	सहायक पशु चिकित्सक	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
84	श्री विनोद कुमार कुरे	पशु चिकित्सा सहा.सल्यज, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
85	श्री केशव प्रसाद पटेल	कृषि विकास अधिकारी, सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
86	श्री कन्हैयालाल उडके	मुख्य महा., जिला व्या.एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
87	श्री एलेक्सिस तिकी	महाप्रबंधक, जिला व्या.एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
88	श्री सी.आर. महिलागे	वाणिज्य कर अधिकारी रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
89	श्री ए.एल. बरेठ	सहा. अभि., लो.नि.वि.से. रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
90	श्री एम.आर. भगत	सहा. अभि., लो.नि.वि.से. रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
91	श्री विनोद कुमार मरकाम	सहा. अभि., लो.नि.वि.से. रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
92	श्री पी.के. मजूमदार	सहा. अभि., जल संसाधन रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
93	श्री आर.एस. मिंज	अनु. अधि., जल संसाधन बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
94	श्री योगेन्द्र गन्डेचा	वन परिक्षेत्र अधिकारी बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
95	श्री खुनुराम खुराना	उप अभि., अनु.अधि. या.यां.से. रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
96	श्री सुरेश कुमार देवांगन	सहा.नियंत्रक, नाप तोल विभाग रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
97	श्री आर. एन. नौरंगे	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
98	डॉ. नरेश खुटे	पशु चिकित्सा अधिकारी, बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
99	श्री डमरूधर टांडे	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
100	श्री राम सिंह पटेल	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बरमकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
101	श्री नरेश कुमार भंडारी	सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
102	श्री गौरीशंकर इजारदार	कृषि विकास अधिकारी, सारंगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

103	श्री गिरीश टिकरीहा	सहा.अभि., जल संसाधन विभाग रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
104	डा. राजेन्द्र सिंह	प्राचार्य, शा. लोचन प्रसाद पाण्डेय महा. सारंगढ	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
105	श्री त्रिभुवन सिंह सिदार	सहा.अभि., मि.बा.नहर स.क्र. 5 खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
106	श्री हरीश कुमार राठौर	उप अभियन्ता, शा.यां.से. संभाग खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
107	श्री शोभाराम पटेल	प्रभारी सचिव, कृषि उपज मंडी खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
108	श्री प्यारेलाल सिदार	सहा.वन परिक्षेत्राधिकारी, वन विभाग खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
109	श्री जे.पी. असाली	प्र.सहा.अभियन्ता, लो.स्वा.यां. विभाग खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
110	श्री आर.एस. तोमर	वन उद्यान अधीक्षक, उद्यान रोपणी अंजोरीपाली	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
111	श्री विमल कुमार पटेल	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
112	श्री शेख शाकिर	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
113	श्री शंकर सिंह जानसन	अति.वाणि. कर अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
114	श्री ए.एस. भारद्वाज	सहा.अभि., मांड शीर्ष कार्य उपसंभाग खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
115	श्री आर.एन. मिश्रा	उप अभि., मांड शीर्ष कार्य उप संभाग खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
116	श्री एस.एन. कुरैसी	वरि.कृ.वि.अधि., कृषि विभाग खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
117	श्री समीर जौनाथन	वन परिक्षेत्राधिकारी, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
118	श्री ए.के. भारद्वाज	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
119	श्री सुबोध कुमार	सहा.अभि., अ.अभि.मि.मा.बां.न. खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
120	श्री विरेन्द्र कंवर	सहा.अभि., मि.मा.बां.न. खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
121	श्री रामनारायण श्रीवास	सहा.अभि., मि.मा.बां.न. खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
122	श्री जगदीश प्रसाद गोड़	सहायक अभि., लो.स्वा.यां. विभाग रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
123	श्री एस.के. श्रीवास्तव	उप अभियन्ता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, 05 खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
124	श्री रेशमलाल यादव	कृषि विकास अधिकारी, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
125	श्री शेर सिंह कश्यप	सहायक पंजीयक, सह. संस्थायें रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
126	श्री आर.ए. तिवारी	कार्य.यंत्री, सिविल लो.नि.वि.से. रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
127	श्री अखिलेश कुमार साहू	सहा.अभि., जल संसाधन संभाग रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
128	श्री बी.एल. कोलाम	अनुविभागीय अधिकारी, शा.यां.से. पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
129	श्री सी.पी. एक्का	अनु.अधि., केलो निर्माण परि. उप संभाग पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
130	श्री व्ही.डी. दीवान	अनु.अधि., केलो निर्माण परि. उप संभाग पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
131	श्री ए.के. सिंह	उप अभि., केलो निर्माण परि. उप संभाग पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
132	श्री विजय कुमार तिकी	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पुसौर	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
133	श्री विजय कुमार शुक्ला	सचिव, कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
134	श्री शैलेश कुमार झा	पशु चिकित्सा सहायक सल्यज्ञ, खरसिया	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
135	श्री शिवानंद शर्मा	सहा.अभि., केलो परि.सर्वे.संभाग रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
136	श्री बी.एस. सरोटे	उपवन मण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
137	श्री सियाराम सिंह	वन परिक्षेत्र अधिकारी, धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
138	श्री राजाराम सारथी	कार्यपालन अभि. जल संसा. विभाग, धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
139	श्री जयवंश तिग्गा	सहा. सांख्यिकीय अधिकारी, परियोजना प्रशासक आ.वि. धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
140	श्री विनोद कुमार भगत	अ.वि.अ., जल संसाधन धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
141	श्री एस.के. दुबे	वन परिक्षेत्राधिकारी, कुडेकेला	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
142	श्री डमरूधर सिदार	कार्य.अभि., छ.ग.राज्य अक्षत उर्जा वि.अभि.रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
143	श्री सीमांत तिवारी	परि.क्रियान्वयन इकाई क्र. 2 छ.ग.शा.स.विकास अभि. धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
144	श्री एस.आर. सिदार	वि.ख.शि.अ., धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
145	श्री डी.एस. पेंकरा	उपवन मंडलाधिकारी, तेंदूपत्ता धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
146	श्री बी.पी. घिल्ले	अ.वि.अ., कृषि धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
147	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी, धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
148	श्री संतोष सिंह गोड़	सहा.अभि., जल संसाधन धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

149	श्री पी.एल. चन्द्राकर	सहा.अभि., परि.क्रियान्वयन इकाई क्र. 2 छ.ग.शा.सड़क विकास अभि. धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
150	श्री विश्वजीत सिंह	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
151	श्री नवदीपक साहू	वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त-2 रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
152	श्री आर.के. बाजे	वाणिज्य कर अधिकारी, रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
153	श्री एस.के. साहू	अ.वि.अ., शा.यां.से. धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
154	श्री गणेश शर्मा	अ.वि.अ., लो.नि.वि. धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
155	श्री पी.पी. एस. पैकरा	सहा.अभि., लोक स्वा.यांत्रिकी धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
156	श्री सावन साय एक्का	कृषि विकास अधिकारी, घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
157	श्री वेदप्रकाश वर्मा	सहा.अभि., लोक स्वा.यांत्रिकी घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
158	श्री जी.आर. पटेल	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
159	श्री के.आर. खम्हारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी, घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
160	श्री एस.एन. साहू	वि.ख.शि.अधि., घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
161	डॉ. राहुल परासर	पशु चिकित्सक, घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
162	श्री दुबराज सिंह राठिया	कृषि विकास अधिकारी, घरघोड़ा	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
163	श्री एस.के. सक्सेना	सहा. अभि., जल संसाधन रायगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
164	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	प्राचार्य, शास.क.उ.मा.वि. धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
165	श्री एस.बी. लकड़ा	प्राचार्य, शास. महाविद्यालय धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़
166	श्री नोहरसाय एक्का	प्राचार्य, शास.उ.मा.वि. धरमजयगढ़	सम्पूर्ण जिला रायगढ़

कोरबा

1	श्री प्रमोद कुमार गढेवाल,	सहायक संचालक, कृषि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
2	श्री डी.पी.एस. कंवर	सहायक संचालक, कृषि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
3	श्री विकास सिंह	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
4	श्री मनोज अग्रवाल	परियोजना अधिकारी, कोरबा (शहरी) महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
5	डा. विनोद कुमार	प्राध्यापक, शा.ई.व्ही.स्नात.महा. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
6	श्री अतुल राज पैगवार	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
7	श्री कमल राम साहू	कार्यपालन अभियंता, छ.ग.शा.स.वि. अभि. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
8	श्री बी आर साव	सहायक अभियंता,	सम्पूर्ण जिला कोरबा
9	श्री के एल टंडन	सहायक प्राध्यापक,	सम्पूर्ण जिला कोरबा
10	श्री संजय अग्रवाल	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
11	डा. विद्यानंद बोरकर	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग करतला	सम्पूर्ण जिला कोरबा
12	श्री राजेश धवनकर	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बराज जल प्रबंध संभाग रामपुर	सम्पूर्ण जिला कोरबा
13	श्री विनोद कुमार शारस्वत	सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, नपानि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
14	श्री नूतन पाल कुर्रे	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय करतला	सम्पूर्ण जिला कोरबा
15	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा, शिक्षा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
16	डा. एस के प्रसाद,	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
17	श्री करुण डहरिया	प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
18	श्री शिव कुमार साहू	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा करतला	सम्पूर्ण जिला कोरबा
19	श्री एच एन सिंह,	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा करतला	सम्पूर्ण जिला कोरबा
20	डा. राजकुमार	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय बरपाली	सम्पूर्ण जिला कोरबा
21	श्री शिरीन लाखे,	समाज कल्याण अधिकारी, नपानि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
22	श्री जे एल चैहान	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय भैसमा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
23	श्री पी.के. लहरे	सहा. प्राध्यापक, शास. महा. भैसमा	सम्पूर्ण जिला कोरबा

24	डा. प्रभाकर दर्शन	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय करतला	सम्पूर्ण जिला कोरबा
25	श्री संदीप पाण्डेय	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी करतला, शिक्षा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
26	श्री विजय शर्मा	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय करतला	सम्पूर्ण जिला कोरबा
27	श्री सुखदेव सिंह कंवर	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
28	श्री भागीरथ वर्मा	अधीक्षण अभियंता, नपानि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
29	श्री आर. के. सिंह	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय भैसमा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
30	श्री के.एल. टंडन	सहा. प्राध्यापक, शास. महा. भैसमा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
31	श्री हर्ष कवीर	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
32	श्री भूषण राम उरांव	कार्यपालन अभियंता मेकेनिकल, नपानि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
33	श्री जे पी खाण्डे,	जिला रोजगार अधिकारी कोरबा, रोजगार	सम्पूर्ण जिला कोरबा
34	श्री शम्शुद्दीन	वन क्षेत्रपाल, कोरबा वन मण्डल	सम्पूर्ण जिला कोरबा
35	श्री विनोद बुनकर	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
36	श्री योगेश कुमार	फिल्ड आफिसर, अंत्यावसायी विकास विभाग कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
37	श्री बी एस राजपूत	सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
38	स्थानांतरित	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
39	श्री आर पी शिंदे	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
40	श्री आर सी ठाकुर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
41	श्री एम जी श्यामकुंवर	उप संचालक, कृषि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
42	श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	प्रबंधक, ग्रामोद्योग कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
43	श्री अजय कुशावाहा	उप संचालक, उद्यान कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
44	श्री सूर्यभान सिंह ठाकुर,	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
45	श्री एस के जोशी	नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
46	श्री ए के निखरा	कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृ.नि.मं. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
47	श्री विकास सरोदे	सहायक श्रम आयुक्त कोरबा, श्रम	सम्पूर्ण जिला कोरबा
48	श्री आशु अग्रवाल	जिला पंजीयक (पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क) कोरबा, (पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क)	सम्पूर्ण जिला कोरबा
49	स्थानांतरित	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरबा
50	श्री विजय कौशिक,	ए.पी.सी., राजीव गांधी शिक्षा मिशन कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
51	श्री के पी चैधरी,	सहायक संचालक मत्सय कोरबा, मत्सय	सम्पूर्ण जिला कोरबा
52	श्री एल.सी. सारथी	सहा. अभियंता, छ.ग.शा.स.वि. अभिकरण कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
53	श्री एस के दुबे,	सहायक संचालक, आदिवासी विकास कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
54	श्री अश्वनी कुमार चैबे	वन क्षेत्रपाल, वनमण्डल कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
55	श्री पवन कुमार वर्मा,	निगम सचिव, नगर पालिक निगम कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
56	श्री के पी मनहर	सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
57	श्री नंद कुमार सिन्हा	वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
58	श्री प्रकाश कुजूर,	वन क्षेत्रपाल कटघोरा, वन मण्डल कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
59	श्री मोहर सिंह मरकाम	वन क्षेत्र पाल, कटघोरा, वन मण्डल कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
60	श्री रामकुमार माहेश्वरी,	प्रभारी कार्यपालन अभियंता, नपानि कोरबा, नपानि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
61	श्री राम सिंह राठिया,	वन क्षेत्र पाल कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
62	श्री एम.पी. सिंह	सहायक जिला परियोजना अधिकारी, रा.मा.शि.अ. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा

63	श्री केदार नाथ जोगी	वन क्षेत्रपाल कटघोरा, वन कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
64	श्री ए के तिवारी	सहायक वन संरक्षक, पाली, वन पाली	सम्पूर्ण जिला कोरबा
65	श्री एल पी बंजारे	सहायक अभियंता, छ.ग.गु.नि.मं. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
66	श्री विजय कुमार सोनी,	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
67	डा. टी. आर. राठिया	जिला आयुर्वेद अधिकारी कोरबा, चिकित्सा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
68	श्री ए एल बर्मन	सहायक अभियंता, छ.ग.गु.नि.मं. कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
69	श्री एस पी सोनवानी,	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोरबा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
70	श्री के पी दहायत	सहायक अभियंता, नपानि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
71	श्री विनोद कुमार शांडिल्य	सहायक अभियंता, नपानि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
72	श्री तपन योगी तिवारी	सहायक अभियंता, नपानि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
73	श्री प्रवेश चन्द्र कश्यप	मुख्य नगर पालिका अधिकारी कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
74	श्री धरम चंद सोनकर	सहायक अभियंता, नपानि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
75	श्री विवेक रिछारिया,	प्रभारी सहायक अभियंता, नपानि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
76	श्री आर पी शुक्ला	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग	सम्पूर्ण जिला कोरबा
77	श्री निश्चल शुक्ला	वन क्षेत्रपाल, वनमंडल कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
78	श्री द्वारिका जायसवाल	सहायक अभियंता, उप संभाग कटघोरा जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरबा
79	श्री श्यामाचरण नेताम	सहायक प्राध्यापक, शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
80	श्री आर एस बघेल	सहायक अभियंता, हसदेव बराज	सम्पूर्ण जिला कोरबा
81	श्री एम. एल. ब्राम्हणी	सहायक, परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी मिशन कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
82	श्री प्रहलाद यादव	वनक्षेत्रपाल	सम्पूर्ण जिला कोरबा
83	श्री सी बी सिंह तंवर,	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
84	श्री रामनरेश दुबे,	अनु० अधिकारी, लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरबा
85	श्री चन्द्रहास यदू,	सहायक जिला आबकारी अधिकारी कोरबा, आबकारी	सम्पूर्ण जिला कोरबा
86	श्री अचल कुमार बाजपाई	सहायक संचालक रेशम कोरबा, रेशम	सम्पूर्ण जिला कोरबा
87	श्री ए के चन्द्राकर	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा, शिक्षा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
88	श्री सी एल धाकड़	सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग कोरबा, जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण जिला कोरबा
89	श्री विजय सिंह पोर्ते,	सहायक अभियंता, छ.ग. पर्या. संरक्षण मंडल, छ.ग. पर्या. संरक्षण मंडल	सम्पूर्ण जिला कोरबा
90	डा. एन पी सिंह	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कोरबा, पशु चिकित्सा सेवाएं	सम्पूर्ण जिला कोरबा
91	श्री सत्येन्द्र सिंह	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
92	श्री अरविन्द कुमार तिवारी	उप वन मण्डलाधिकारी, कटघोरा वन मण्डल	सम्पूर्ण जिला कोरबा
93	श्री अक्षय कुमार जैन,	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (सेतू संभाग कोरबा)	सम्पूर्ण जिला कोरबा
94	श्री समीर कौर	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
95	श्री मृत्युंजय शर्मा,	वन क्षेत्रपाल कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
96	श्री संतोष कुमार तिवारी,	अनु. अधि., जल संसाधन उप संभाग क्रमांक-1 कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
97	श्री के एस मरकाम	सहायक अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा, जल संसाधन संभाग कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
98	श्री एम एस कंवर	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पाली	सम्पूर्ण जिला कोरबा
99	श्री डी के मिश्रा	उप संचालक, खनिज	सम्पूर्ण जिला कोरबा
100	स्थानांतरित	परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास	सम्पूर्ण जिला कोरबा
101	श्री डी लाल	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पाली, शिक्षा	सम्पूर्ण जिला कोरबा

102	श्री संदीप शुक्ला	प्रभारी मु.कार्य. अधि. अंत्यावसायी कोरबा, अंत्यावसायी कोरबा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
103	श्री एम आर मरकाम	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पाली, शिक्षा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
104	श्री अशोक कुमार जोगी	प्रभारी सहायक अभियंता, या.या.सेवा कटघोरा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
105	श्री एच बंजारे	ए.पी.सी., राजीव गांधी शिक्षा मिशन	सम्पूर्ण जिला कोरबा
106	श्री सतीश पाण्डेय	जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा, शिक्षा	सम्पूर्ण जिला कोरबा
107	श्री टीका राम	सहायक प्राध्यापक, नवीन शासकीय महाविद्यालय पाली	सम्पूर्ण जिला कोरबा
108	श्री मनीष कुमार पात्रे,	मुख्य नगर पालिका अधिकारी पाली	सम्पूर्ण जिला कोरबा
109	श्री एम व्ही कुम्हारे,	कार्यपालन अभियंता, हसदेव परियोजना मण्डल रामपुर	सम्पूर्ण जिला कोरबा
110	श्री कपूर चंद	सहायक प्राध्यापक, नवीन शासकीय महाविद्यालय पाली	सम्पूर्ण जिला कोरबा
बिलासपुर			
1	श्री पीटर डेनियल खलखो	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन संभाग पेण्डारोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
2	श्री कृष्ण चरण दुबे	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन संभाग पेण्डारोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
4	श्री डी.एल. कोरी	सहायक अभियन्ता जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
5	श्री आर.एस. नायडू	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
6	श्री एस पी सिंह	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
7	श्री पी.आर. ठाकुर	कार्यपालन अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
8	श्री एस. के. टण्डन	सहायक प्राध्यापक माधवराव सप्रे महाविद्यालय पेण्डारोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
9	श्री तामध्वज शुक्ला	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय पेण्डारोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
10	श्री ओमप्रकाश जंधेल	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय पेण्डारोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
11	श्री सुनील कुमार गोहिल	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग पेण्डारोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
12	श्री यशवंत कुमार सोनकर	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सेतुनिर्माण संभाग बिलासपुर मोबा.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
13	श्री हरिश्चंद्र वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
14	श्री भूषणलाल पाण्डेय	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
15	श्री संतोष कुमार कौशिक	सहायक अभियन्ता, कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन संभाग पेण्डारोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
16	श्री देवलाल उडके	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महामाया महा. रतनपुर,	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
17	श्री मनोज थोरात	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
18	श्री के.आर गंगेश्री	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
19	श्री बी.के. त्रिपाठी	सहायक प्राध्यापक शासकीय निरंजन केशरवानी महा. कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
20	श्री के.एल. ढारगावे	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

21	श्री एन के एस दीक्षित	उपायुक्त आदिवासी विकास विधि प्रकोष्ठ बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
22	श्री ऋषभदेव चौबे	सहायक प्राध्यापक शासकीय निरंजन केशरवानी महा. कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
23	श्री मुकेश कुमार साहू	प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बिल्हा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
24	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता	कार्यपालन अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
25	श्री केशव कुमार	कार्यपालन अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
26	श्री एन एस राज	कार्यपालन अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
27	श्री ए.के. सिंह	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
28	श्री राजेन्द्र कुमार साहू	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
29	श्री पीयूष प्रसाद	उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा न्यू कंपोजिट बिल्डिंग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
30	डा. के.आर. साहू	सहायक प्राध्यापक शासकीय पं. माध्यवराव सप्रे महा. पेण्डूरोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
31	श्री ओ.एस. कंवर	सहायक प्राध्यापक शासकीय पं. माध्यवराव सप्रे महा. पेण्डूरोड	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
32	डा. असीम राज	सहायक प्राध्यापक शासकीय महा. मरवाही	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
33	श्री अमित कुमार सिन्हा	परियोजना अधिकारी, महिला एवम बाल विकास परियोजना कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
34	श्री आर.जी. अहिरवार	उप संचालक कृषि बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
35	श्री सुभाष भाबरी	अनुविभागीय अधिकारी, घोधा शीर्ष कार्य उप संभाग कोटा संभाग कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
36	श्री राकेश कुमार शर्मा	सहायक संचालक, कृषि कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
37	श्री अनिल कौशिक	सहायक संचालक, कृषि बिलासपुर कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
38	श्री सी.एल. कश्यप	संयुक्त आयुक्त, कार्यालय सहायक संचालक पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
39	श्री आर.एस. यादव	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग रतनपुर संभाग कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
40	श्री उमेश नायक	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग रतनपुर उप संभाग कोनी जिला बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
41	श्री एस.एन. पाटीदार	सहायक अभियंता, रूपांकन, कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
42	श्री कृष्णकान्त मिश्र	उप संचालक उद्यान, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
43	श्री दीपक कुमार गुप्ता	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
44	श्री असगर खान	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
45	श्री विजय कुमार	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
46	श्री मुकेश डावरे	सहायक अभियंता, कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
47	श्री संजय पाठक	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता वि/या लाइट मशीनरी नलकूप एवम गेट संभाग सकरी बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
48	श्री बाबू सिंह कंवर	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता लाइट मशीनरी नलकूप एवम गेट संभाग सकरी बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

मुंगेली

1	श्री एम एम मिश्रा	वन परिक्षेत्र अधिकारी लमनी वन विभाग	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
2	श्री आर.के. सिदार	सहायक संचालक अचानकमार्ग टाइगर रिजर्व लोरमी वन विभाग	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
3	श्री एम.के. राय	सहायक संचालक अचानकमार्ग टाइगर रिजर्व लोरमी वन विभाग	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
4	श्री रंगनाथा रामाकृष्णा वाई	अनुविभागीय अधिकारी वन लोरमी	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
5	श्री आर.के. मिश्रा	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग, लोरमी	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
6	श्री मदन सिंह	अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
7	श्री एस. आर. नेताम	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
8	श्री ए. डी. बंजारा	अनुविभागीय अधिकारी लो नि वि लोरमी लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
9	श्री के. के. डडसेना	वन परिक्षेत्र अधिकारी लोरमी वन विभाग	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
10	श्री व्ही. के. केडिया	जिला रोजगार अधिकारी, मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
11	श्री टी. आर. उईके	सहायक संचालक रेशम, मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
12	श्री एम. आर. तिग्गा	उपसंचालक कृषि मुंगेली कृषि विभाग	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
13	श्री यू. एस. तिर्की	कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
14	श्री व्ही. के. पटेल	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
15	श्री चन्द्रदेव सिंह	सहायक संचालक उद्यान विभाग, मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
16	श्री अंकित तामकार	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, लोरमी	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
17	श्री एस. पी. पटेल	जिला आयुर्वेद अधिकारी, मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
18	श्री एस. एस. गेंदले	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, लोरमी	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
19	श्री व्ही. के. भेलवा	सहायक मत्स्य अधिकारी, मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
20	श्री लक्ष्मी कश्यप	कार्यपालन अधिकारी छ. ग. राज्य अंत्याव्यवसायी वित्त एवं विकास, मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
21	श्री मनोज खलखौं	जिला महिला बाल विकास विभाग मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
22	श्री एम एल कुसरे	महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
23	श्री आर के वर्मा	अ वि अ आर एई एस लोरमी	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
24	डा-विनोद सिंह तोमर	सहायक पशु चिकित्सक मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
25	श्री बी-एल- सिंहश्रे-	कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
26	श्री एन-पी- बेहरा	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
27	श्री डी-के- सारस्वत	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
28	श्री वी-के- सेन	अ-वि-अ- आर-ई-एस-मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
29	श्री ए-के- लाल	अ-वि-अ- जल संसाधन विभाग मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
30	श्री आर-एस-कश्यप	जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
31	श्री एन- के चन्द्रा	जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
32	श्री राकेश साहू	कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
33	श्री संजय धुव	सहायक पशु चिकित्सक मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
34	श्री प्रतीक पाटनी	उपयंत्री पी-एच-ई मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
35	श्री के-के- तिवारी	सहायक अभियंता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
36	श्री सजय पाल	वरिष्ठ खेल अधिकारी मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
37	श्री अंतराम आदित्य	उपयंत्री मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
38	श्री सी-एस- जायसवाल	सहायक पंजीयन सहकारिता संस्थाएं मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
39	श्री एस.पी. चौधरी	उपअभियंता जल संसाधन विभाग मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
40	श्री एन-के-नेमा	अ-वि-अ जल संसाधन विभाग मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली

41	श्री यू-के- बजारे	अ-वि-अ- जल संसाधन विभाग मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
42	श्री रहमान खान	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
43	श्री आर-एस- लहमोर	छ-ग- रा-सह-विपणन सं- मर्यादित मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
44	श्री अरविन्द्र कुमार सोनी	उपसंचालक समाज कल्याण मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
45	श्री आर-एन-लाल	एस-डी-ओ- पी-एच-ई- पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
46	श्री आर-एल- गौतम	अ-वि-अ- जल संसाधन विभाग पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
47	श्री एच-पी-सिंह	उपयंता जल संसाधन विभाग मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
48	श्री आर-एस- कश्यप	उपअभियंता पी-एच-ई- पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
49	श्री टी पी पटेल	अविअ आर ई एस पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
50	श्री पी के तिवारी	उपअभियंता जल संसाधन विभाग पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
51	श्री डां के पी मरावी	व्ही ए एस वेटनरी विभाग सरगांव	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
52	डॉ एस एम पाण्डेय	व्ही ए एस वेटनरी विभाग पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
53	श्री ए0एन0 तिवारी	उपअभियंता जल संसाधन विभाग पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
54	श्री रविपाल राठौर	ए बी ओ पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
55	श्री एस के खरे	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
56	श्री जी आर लाटिया	अ वि अ पी एच ई मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
57	श्री रामजी पाल	ए बी ई ओ पथरिया	सम्पूर्ण जिला मुंगेली
58	श्री ए के यदु	कार्यपालन अभियंता मनियारी जल संसाधन मुंगेली	सम्पूर्ण जिला मुंगेली

बिलासपुर

1	श्री मुरारीलाल शर्मा	सहायक अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
2	श्री नमित कोसरिया	सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षक अभियंतालोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
3	श्री राघवेन्द्र राठौर	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
4	श्री सागर गरेवाल	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
5	श्री प्रवीण कुमार दीवान	सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवम सुरक्षा बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
6	श्री एन.पी. यादव	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवम व्यापार केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
7	श्री टी.आर. कश्यप	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवम व्यापार केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
8	श्री एम.एस. उइके	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवम व्यापार केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
9	श्री एन.के. लकरा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवम व्यापार केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
10	श्री शुभम शुक्ला	प्रबंधक, जिला उद्योग एवम व्यापार केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
11	श्री सतीश पटेल	प्रबंधक, जिला उद्योग एवम व्यापार केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
12	श्री विनय कुमार पाण्डेय	व्याख्याता, शासकीय पालिटेक्निक महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
13	श्री उदय खाखा	सहायक प्राध्यापक शासकीय इंजीनियरिंग महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
14	श्री संदीप कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक शासकीय इंजीनियरिंग महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
15	श्री कलम शंकर पटेल	सहायक प्राध्यापक शासकीय इंजीनियरिंग महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
16	डा. बसंत कुमार सोनी	प्राध्यापक, शासकीय विलासा कन्या स्ना. महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

17	श्री हरेन्द्र कुमार	व्याख्याता, शासकीय पालिटेक्निक बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
18	श्री मिनेश मरकाम	व्याख्याता, शासकीय पालिटेक्निक बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
19	श्री रमेश कुमार कुम्हारे	कार्यपालन अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
20	श्री अभिषेक अवस्थी	प्रभारी प्राचार्य, शासकीय कन्या पालिटेक्निक बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
21	श्री दिलीप जायसवाल	उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
22	श्री ए.सी. पहारे	उप संचालक जिला रोजगार एवम स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
23	श्री जे.एस. नेताम	मुख्य महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवम व्यापार केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
24	श्री उमराव सिंह राजपूत	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
25	श्री अरूण कुमार सिंह	प्राचार्य आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
26	श्री हरिसिंह मरकाम	कार्यपालन अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
27	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
28	श्री सुक्रांत साहू	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
29	श्री एस.एल. चन्द्राकर	सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
30	श्री मधु कुमार चन्द्रा	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
31	श्री गुलाम अब्दुल सलीम	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
32	श्री अरविन्द कुमार कोशले	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
33	श्री आर.पी. सोनी	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
34	श्री राजेश क्षत्री	सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय उप संचालक खाद्य एवम औषधि प्रशा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
35	श्री संजय साहू	व्याख्याता, शासकीय पालिटेक्निक बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
36	श्री पी.के. डाहिरे	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
37	डा. के. वेणुआचारी कौन्तुरती	सहायक प्राध्यापक, शासकीय मदनलाल शुक्ल महा. सीपत	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
38	श्री ए.के. जैन	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
39	डा. डी.आर. साहू	प्राध्यापक शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
40	डा. आर के बिसेन	प्रमुख वैज्ञानिक, कार्यालय वैरिक्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
41	डा. आर के शुक्ला	प्राध्यापक, कार्यालय वैरिक्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महावि. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
42	डा. जे.आर. पटेल	प्रमुख वैज्ञानिक कार्यालय वैरिक्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

		बिलासपुर	
43	डा. एच पी अग्रवाल	प्रमुख वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
44	डा. एन के चौरे	प्रमुख वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
45	डा. देवेश पाण्डेय	प्रमुख वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
46	डा. ए.के. अवस्थी	प्रमुख वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
47	डा. टी.डी. पाण्डेय	प्रमुख वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
48	डा. आर. के. एस. तोमर	प्रमुख वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
49	डा. ए.पी. अग्रवाल	प्रमुख वैज्ञानिक प्रमुख वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
50	डा. डी.के. शर्मा	प्रमुख वैज्ञानिक प्रमुख वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
51	डा. एस.के. वर्मा	प्रमुख वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
52	श्री अजीत विलियम्स	वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
53	डा. गीत शर्मा	वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
54	श्री पी.के. केसरी	वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
55	डा. डी.जे. शर्मा	वैज्ञानिक कार्यालय वैरिष्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महा. एवम अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
56	श्री पी.एल. वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग बेलगहना संभाग पेण्डारोड मोबा.	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
57	श्री बी.जे.एस मुगलियार	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन कोटा संभाग कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
58	श्री आई.ए. सिद्धिकी	अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन सर्वेक्षण उप संभाग कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
59	श्री जी.एस. तामकार	अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
60	श्री बंशीलाल मंडलोई	सहायक प्राध्यापक पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तुरी	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
61	श्री दिलेश्वर	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता वि/यां भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
62	श्री जी.आर. चौहान	उप संचालक भौमिकी संचालनालय भौमिकी एवम खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
63	श्री कैलाश डोगरे	संयुक्त संचालक भौमिकी संचालनालय भौमिकी एवम खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
64	श्री सोमशेखर विश्वकर्मा	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
65	श्री अविनाश गुंजाल	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवम सुरक्षा बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
66	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
67	श्री एस के पाण्डेय	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
68	श्री आर.एन. शर्मा	सहायक अभियंता, कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
69	श्री एस.टी. राबिन्सन	कार्यपालन अभियंता, वि/यां लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर

70	श्री एस डब्लू मानूरकर	सहायक अभियंता, कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
71	श्री बी.पी. सुनगरिया	कार्यपालन अभियंता, वि/यां भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
72	श्री मनोरंजन सरकार	प्रभारी कार्यपालन अभियंता (सहायक अभियंता) नगर पालिक निगम बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
73	श्री आर के चौबे	कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
74	श्री दिनेश कुमार सिंह	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता वि/यां लाइट मशीनरी नलकूप एवम गेट संभाग संकरी बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
75	श्रीमती जागृति साहू	उपायुक्त, नगर पालिक निगम बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
76	श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव	संपदा अधिकारी, नगर पालिक निगम बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
77	श्री रविन्द्रनाथ यादव	सहायक भौमिकी विद, संचालनालय भौमिकी एवम खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
78	श्री पी. एस पट्टा	प्रबंधक, सी.एस.आई.डी.सी. तिफरा, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
79	श्री चंद्रकिशोर उरेती	प्रबंधक, सी.एस.आई.डी.सी. तिफरा, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
80	श्री एन के बरडे	उप प्रबंधक, सी.एस.आई.डी.सी. तिफरा, बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
81	श्री मुकेश अग्रवाल	सहायक संचालक नगरीय प्रशासन विकास विभाग बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
82	श्री अनिल कुमार तारम	अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
83	श्री ए के महेश्वर,	उप संचा. मछली पालन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
84	श्री अनिल कुमार ललित	यांत्रिक प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
85	श्री ए.के. महोबिया	अनुसंधान अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
86	श्री व्ही.डी. जोतवानी	अनुसंधान अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
87	श्री एस.एन. तिवारी	कार्यपालन अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
88	डा. के एस कुसाम	सहायक प्राध्यापक शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
89	डा. ए.के. लहरे	सहायक प्राध्यापक शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
90	डा. के आनन्द कोशिक	सहायक प्राध्यापक शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
91	श्री बी.एल. काशी	सहायक प्राध्यापक शासकीय निरंजन केशरवानी महा. कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
92	श्री किशोर मिंज	सहायक प्राध्यापक शासकीय निरंजन केशरवानी महा. कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
93	श्री वाय के उपाध्याय	सहायक प्राध्यापक शासकीय निरंजन केशरवानी महा. कोटा	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
94	श्री प्रकाश कुमार यादव	सहायक प्राध्यापक शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
95	डा. रघुनन्दन पटेल	सहायक प्राध्यापक शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
96	डा. हीरालाल शर्मा	सहायक प्राध्यापक शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
97	प्रो. रामप्रसाद चन्द्रा	सहायक प्राध्यापक शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
98	डा. बी. जांगडे	सहायक प्राध्यापक शासकीय जे.एमपी महा. तखतपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
99	डा.डी.पी. चंद्रवंशी	सहायक प्राध्यापक शासकीय जे.एमपी महा. तखतपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
100	श्री बसंत अंचल	सहायक प्राध्यापक शासकीय जे.एमपी महा. तखतपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
101	डा. डी.के. शुक्ला	सहायक प्राध्यापक शासकीय माता सबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
102	डा. एल एन दुबे	सहायक प्राध्यापक शासकीय माता सबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
103	डा. अखिलेश कुमार पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक शासकीय विलास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
104	प्रो. जयप्रकाश दुबे	सहा. प्राध्यापक शासकीय विलास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर
105	डा. के.के. सिन्हा	सहायक प्राध्यापक, शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर महा. बिलासपुर	सम्पूर्ण जिला बिलासपुर